



designedge
...PERCEPTION FOR ULTIMATE DESIGNING

VISUAL-AID'S
(Leaflet, Reminder, Brochure etc.)
All Types Designing Printing

M.R. BAGS
Embroidery & Printing

Tape Printing

Website Designing

OFFER No Designing Cost For Above 25 Books * Lowest Price * Delivery on Time

Ph.: 01765-522605, 090239 79870
Email: mktg.designedge@gmail.com, Website: www.designedgeindia.in

Our General Divisions

MERRIL MESTRA STERILE GENETICS

Third Party Enquiry Also Welcome

And many more ...
We have more than 250 products in our successfully running company.

For any query :- 9719839944 (Call & WhatsApp App)

New Molecules available

Natural Progesterone 300mg SR Tab
Faropenem-200mg Tab.
Ambroxol+ Levocetirizine+ Montelukast
Trypsin+ Rutoside+ Bromeline+ Diclofenac
Sultamycinil-375mg Tab.
Rifaximin-400mg Tab.
Thiocholchicoside+ Aceclofenac+ Paracetamol
Medoxyprogesterone 10mg

Introduce New Division

Emocare A Neuro-Pediatric Division	NUCAD Cardiac Diabetic division	Gynepure Gyne-infertility division	BEAUKIN A Dermo Division of Mest Pharma
Piraciti-Plus Cilicaine 200mg + Pracacetamol 500mg Tab.	Metolip-ER 25/50 Metoprolol Tartrate 25/50 (ER)	Gensure-Sachet L-Arginine 3gm + Proanthocyanidin 75 mg	Antihist-D Desloratadine 10 mg.
Velpy-200/300/500 Sodium Valproate With Valproic Acid	Nuepido-AS Clopidogrel 75 mg +Aspirin 75 mg	Gensure-LC L-Carnitine + Co-Enzyme + Fibrot + Lycopene+ Zinc Sulphate	Tacroril Tacrolimus Cream 0.03
Emofexine Tab. Desvenlafaxine 50mg ER	Nuepido-Plus Clopidogrel 75 mg +Aspirin 150 mg	NMPC-softgel/SR tab/ Inj. Natural Microsized Progesterone B.P. 100/200/500 mg	Candigel Luliconazole 1.0% w/w
Emofexine Plus -50 Desvenlafaxine 50 mg + Clonazepam 0.5 mg	Tenzex-M Tanelepliptin 20mg + Metformin Hydrochloride 500mg	Gensure-F Folic Acid, Inositol, L-Alanine, Selenium Grape Seed Extract, Lycopene, Vitamins & Zinc	Eberil Eberconazole 30 mg

Registered Office :- A-401/402, Empire Business Hub,
Science City Road, Ahmedabad-380060 (Gujrat)-India,
Email : order@mestrapharma.com Website : www.mestrapharma.com

**ARE YOU LOOKING FOR
ASTHMA RANGE OF PRODUCTS?**

Respules

Redivent-Duo
Levalbuterol 1.25 mg +
Lisinalbuterol 1.25 mg
Respules 2ml.

Redivent
Levalbuterol 1.25 mg
Respules 2ml.

BudeBest
Budesonide 1.5 mg
Respules 2ml.

BudeBest-Duo
Levalbuterol 1.25 mg +
Budesonide 1.5 mg
Respules 2ml.

Forahale 0.5
Formoterol 0.5 mg
Respules 2ml.

BBVENT
Budesonide 1.5 mg +
Formoterol 0.5 mg
Metered Dose Inhalers

Mist-M
Mometasone Furoate 0.05% w/v
Metered Dose Inhalers

Mist-F
Fluticasone Furoate 0.027% w/v
Metered Dose Inhalers

Mist-AZ
Fluticasone Furoate 0.025% w/v +
Azelaic Acid 1.4% w/v Metered Dose Inhalers

Inhalers

Inhalcare
Formoterol 0.5 mg +
Budesonide 1.5 mg
Inhalers

Inha Caps (DPI Capsules)

Forahale 400
Formoterol Fumarate 5 mcg +
Budesonide 400 mcg
Inha Caps

Forahale 200
Formoterol Fumarate 5 mcg +
Budesonide 200 mcg
Inha Caps

TIO LABA
Formoterol Fumarate 5 mcg +
Salbutamol 200 mcg
Inha Caps

Redivent-Duo
Levalbuterol 100 mcg +
Budesonide 40 mcg
Inha Caps

Flutorm-S 250
Fluticasone Propionate 250 mcg +
Salbutamol 50 mcg
Inha Caps

Inhaler
Formoterol 0.5 mg +
Budesonide 1.5 mg
Inhaler

Metered Dose Inhalers

Forahale 200
Formoterol Fumarate 5 mcg +
Budesonide 200 mcg
Inhalers

Forahale 400
Formoterol Fumarate 5 mcg +
Budesonide 400 mcg
Inhalers

Flutorm-S 250
Fluticasone Propionate 250 mcg +
Salbutamol 50 mcg
Inhalers

For trade enquiries please contact

Best
BEST BIOTECH

19-10-1986A & B, B-side Lane of Sankar's Fashion Mall
Sector-18, Phase-1, Gurgaon, Haryana, India. Pin-122002
Ph: +91 886 2972086, +91 886603086
E-mail: info@bestbiotech.com, www.bestbiotech.com

+91 9491889086 +91 9441831448
+91 7075558086 +91 9959018086

TRADE ENQUIRIES WELCOME

Your PROSPECTS AS A **MARKETING ASSOCIATE / FRANCHISEE** ARE EXCELLENT WITH **SANTO**

We Offer

Max. Brands Name with Trade Mark	More than 170 Products in Tablets, Capsules, liquid, Injections, Protein Powder E.t.c
Yearly Bonanza	Competitive Rates
All Kind of Promotional Inputs	Attractive Packings
Variety of Gift Articles	
Fresh Long Expiry Goods	

Products Manufactured Under **SCHEDULE 'M'** with **WHO & GMP Norms**

Contact : 09839141955

LATEST & DCGI APPROVED PRODUCTS

- Cefpodoxime Proxetil & Ofloxacin Tablets
- Rabeprazole & Levosulpiride Capsules
- Fexofenadine & Montelukast Tablets
- Ferrous Ascorbate In Tablets, Drop & Syrup
- Etoricoxib & Thiocholchicoside Tablets
- & Many more products

for further information, please contact :
SANTO MEDI SCIENCES PVT. LTD.
(An ISO 9001:2015 & ISO 22000: 2005 Certified Company)
Bye Pass, Sapoon, Dist. Solan - 173211 (H.P.)
Ph.: +91-1792-220191, Mob.:9839141955, 6390845955
email : info@santomedisciences.com, santomedi@gmail.com, santosales@rediffmail.com
Visit us at : www.santomedisciences.com | www.facebook.com/santo.sciences

Need Business Development Managers For Appointing District Wise PCD Parties Throughout India

MH MEDISHRI HEALTHCARE

WANTED PHARMA FRANCHISEE CUM PCD

More Than 500 Products

NEURO | GASTRO | CARDIAC | DIABETIC | UROLOGY | GYNAE | GENERAL PRODUCTS

INNOVATIVE & LATEST PRODUCTS

BILASCAN-20 Bilastin 20mg Tab.	CEFSCAN-AZ LB Ceftriaxone 200mg & Azithromycin 250mg with LB Tab.	MUCOSCAN-PLUS Acetylcysteine 600mg & Acetaminophen 100mg Tab.
BILASCAN-M Bilastin 20mg & Montelukast 10mg Tab.	DUALSCAN TH INJ Diclofenac Sodium 75mg & Thiocholchicoside 4mg / 2ml Inj.	MUCOSCAN-600 Acetylcysteine Effervescent 600mg Tab.
BRAINCOOL Ergonovine Tartrate 1mg, Ceftriaxone 150mg, Prochlorperazine 25mg & Propiprazone Maleate 2.5mg Tab.	KETORENA Alpha Ketabonolone Tablet.	TICITI-PLUS Citicoline 500mg And Pramoxine 600mg Tab.
BUSCOSCAN-M Hyoscinebutylbromide 10mg & Metenamic Acid 250mg Tab.	HELPAE-PT Aceclofenac 100mg, Paracetamol 325mg & Tramadol Hydrochloride 37.5mg Tab.	FAROSCAN-200 Faropenem Sodium 200mg Tab.
CEFSCAN -OZ LB Ceftriaxone 200mg, Ondizazole 500mg & Lactic Acid Bacillus 60 million Tab.	HELPAE-PG Aceclofenac 50mg & Pregabalin 37.5mg Tab.	SETSPAS-R Rabeprazole 15mg, Clostium Bromide 2.5mg, Diclofenac Hydrochloride 10mg & Chlorzoxipone 500mg Tab.

Also contact for Third Party Manufacturing

MH MEDISHRI HEALTHCARE PVT. LTD.
(An ISO 9001 : 2015 Certified Company)
Regd. Office : 149, Ground Floor, Block G, Pocket-2, Sector-18, Rohini, New Delhi-110 085
Works : Kharia No.-27, Mandawar, Bhaganpur, Roorkee, Dist. Haridwar (U.K.)
E-mail : medishrihealthcare@gmail.com, visit us www.medishri.com

Call or SMS
+91 70153 47369
+91 82220 55953

PAX
रखीत इतोहनट

Your enquiries are welcome for pharma franchise / 3rd party mfg for ayurvedic & herbal products

For Bus. Enquiry: 9216325808
www.paxvediscience.com

INTRALIFE NEXT GENERATION PCD PHARMA COMPANY IN INDIA

CELEBRATING 39 Years of Trust & Understanding

All Under One Roof

INTRALIFE THE LARGEST MEDICINE HUB IN INDIA
1700+ PRODUCTS

THE TOTAL END TO END SOLUTIONS

Call @ 9831149528 | 9353077060
Just SMS or Whatsapp (Your Name & Address to 9353077060)
Email: info@intralifeindia.com | www.intralifeindia.com
Corporate House : #61/C, 6th Main Road, 4th Phase, 7th Block, B.S.K. 3rd Stage, Bangalore - 560 085.

Landline: 0135-2974927
Website: www.pridepharma.in
www.pridepharma.info
Email: pridepharma@hotmail.com

PRIDE PHARMA
(AN ISO 9001:2015 MSME Certified Co.)

Mob: 9412052416, 7060152416,
8006852416, 8006254647

**FOR THIRD PARTY MANUFACTURING
(SMALL BATCHES ALSO AVAILABLE)
CONTACT ON 7830052416**

PRIDE PHARMA
Invites
Parties, ASM's, and Medical
Representatives for the Franchise
in the unrepresented areas

PRIDE PHARMA HAS WIDE RANGE OF

Tablets	Capsules
Injections	Herbal Products
Protein Powder	Dry Syrups
Syrup	Ointments

PAN INDIA PRESENCE

WE OFFER

- Attractive Packaging
- Latest Molecules
- All Promotional Inputs
- Monopoly Rights
- Highest Quality Standards
- Gift Articles

WHG Certified Manufacturing

24 SHRIRAM COMPLEX, 94/1 SHRIRAM PURAM COLONY LANE
NO.1, KANWALI ROAD, DEHRADUN (U.K.)

दृढ़ इच्छा शक्ति

मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता, विकास और उन्नति के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में चमत्कार करना दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा- Do Not For A Moment Quail. Everything Will Come To All Right. It is Will That Moves The World. दृढ़ इच्छा शक्ति रहे तो मानव नगण्य से भी सब कुछ पैदा कर सकता है। आज हम चर्चा करेंगे एक अपाहिज, अनपढ़ व्यक्ति (थॉमस ए०एडीसन) की, जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अपने आविष्कारों से मानवता का कल्याण किया। थॉमस ए० एडीसन ने स्कूलों से बहुत कम ज्ञान प्राप्त किया क्योंकि उनके अध्यापकों ने उन्हें एक अयोग्य बालक कहते हुए स्कूल से बाहर निकाल दिया। एडीसन बचपन से ही रेलगाड़ियों में मिठाइयाँ बेचने के लिए फेरी लगाया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उन्हें कागों से पकड़कर रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया जिसके कारण उनकी सुनने की शक्ति समाप्त हो गयी। अगर एडीसन इस घटना को जीवन भर याद करते रहते तो वे कुछ भी नहीं कर पाते। क्या आप जानते हो कि हमारे घरों में जो बिजली जलती है? यह सब एडीसन की देन है उन्होंने अपने जीवन में अनेकों आविष्कार किए जिससे कि मानव समाज का जीवन उन्नत और सुखी हो सकें। एडीसन की सफलता का कारण है कि उन्होंने भूतकाल के दरवाजे बन्द कर दिये और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना उन्होंने अपने जीवन की सफलता का निष्कर्ष निकाला और मानव समाज को सफल होने का उपाय बताया कि "यदि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो धैर्य को अपना घनिष्ठ मित्र, अनुभव को अपना बुद्धिमान परामर्शदाता और सावधानी को अपना बड़ा भाई बना लो और आशा को अपनी संरक्षक प्रतिमा"। एडीसन के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में और असफलता को सफलता में बदल सकते हैं और कामयाबी की नई बुलंदियों को चूम सकते हो। अन्त में मैं यही कहूँगा जिसने आशा का दीपक जला रखा है उसके पास उदासी का अधेरा नहीं आ सकता।

- बलराम कुमार सैनी, Mob- 09304956847.

INVITES
FRANCHISEE, PCD
3rd Party Manufacturing
with new Combinations
IN ALL OVER INDIA

ACLOPIC-TH TABLETS	GPDEC-M1 TABLETS	RUTIDE TABLETS	REOXIM-250 TABLETS
HIMONT AL TABLETS	GPDEC-M2 TABLETS	RUTIDE-PLUS TABLETS	REOXIM-500 TABLETS
HIMONT FX TABLETS			TELMIPIC-AM TABLETS

for any queries contact us

Atopic Lifesciences
SCF 247, IInd Floor, M, Market,
Manimajra Chandigarh (U.T.)-160101
E-mail:- astopiclifesciences@gmail.com
website : www.astopiclifesciences.com
M: +91 90234-50664, Ph: 0172-4676750
Regional Officer : 120 H/NO. 949, Nagrik Gruh Nirman
Sahakari Sanstha Sonba Nagar (Maharashtra)-440023
Mobile +91-7774007053

EliXirio
A Potion for Healthier Life

World Class Packaging
Complete Range of over 125 Products
Competitive and Reasonable Rates
Round the Clock Customer Support
From best level of International quality

Products	We offer
• Tablets	• Attractive Promo Inputs
• Capsules	• Corporate Gifts
• Eye / Ear drops	• Yearly Bonanza
• Injectables	• Seasonal Bonanza
• Liquids (Suspension / syrups / Drops)	• Visual Aid
• Protein Powders	• Order book
• Dry Syrups	• Reminder Cards
• Soaps	• Catch covers
• Ointments and Gels	• Product Literatures
• Mouthwash	

A professionally managed company gaining a strong foothold in the pharmaceuticals industry

BUSINESS OPPORTUNITY
Marketing and Distribution Rights for financially sound background having pharma selling experience. Parties are welcome in unrepresented areas on monopoly rights only.

CALL TODAY +91 9897 688 009

EliXirio
A-60, Basement, Transport Nagar, Dehradun 248002 Uttarakhand
Mob 98976 88009 email: elixiriopharma@gmail.com

COVID-19 क्रोनिक किडनी रोगियों में पेरिटोनियल डायलिसिस को बढ़ावा देता है

गैर-संचारी रोगों के रोगियों पर महामारी का बुरा प्रभाव पड़ा, जिसमें गुर्दे से संबंधित बीमारियाँ शामिल हैं। कई डायलिसिस रोगियों ने हेमोडायलिसिस के बजाय पेरिटोनियल डायलिसिस को चुना।

COVID-19 क्रोनिक किडनी रोगियों में पेरिटोनियल डायलिसिस को बढ़ावा देता है लगभग 20 लाख किडनी रोग के रोगी भारत में हैं, जिन्हें हर साल लगभग 34 मिलियन डायलिसिस सत्रों की आवश्यकता होती है। मधुमेह और गुर्दे की बीमारियों के रोगियों का जीवन महामारी के कारण अस्त-व्यस्त हो गया है, विशेष रूप से हेमोडायलिसिस के रोगियों को डायलिसिस के लिए अक्सर अस्पतालों का दौरा करना पड़ता है, उनमें से अधिकांश पेरिटोनियल डायलिसिस का विकल्प चुन रहे हैं, डॉक्टरों को सूचित करें।

हाल ही में एक किडनी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार, किडनी रोग के रोगियों की देखभाल पर लॉकडाउन के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। लगभग ७१० (२८.२ प्रतिशत) रोगियों ने एक या अधिक डायलिसिस सत्रों को याद किया, ६९ (२.७४ प्रतिशत) को आपातकालीन डायलिसिस सत्रों की आवश्यकता थी, १०४ (४.१३ प्रतिशत) ने डायलिसिस के लिए रिपोर्ट करना बंद कर दिया, और ९ (०.३६ प्रतिशत) की मृत्यु की पुष्टि की गई। सर्वेक्षण किए गए अस्पतालों में आउटपैशेंट उपस्थिति में 92.3 प्रतिशत की कमी आई, और रोगी सेवा में 61 प्रतिशत की कमी आई। टेली-परामर्श शुरू किया गया था, लेकिन केवल कुछ ही रोगियों द्वारा इसका उपयोग किया गया था। डॉक्टरों ने संकेत दिया कि महामारी की दूसरी लहर का बुरा प्रभाव पड़ा जो कि गैर-संचारी रोगों के रोगियों की देखभाल पर देखा जाता है, जिनमें गुर्दे से संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं। कई रोगियों का अब घर-आधारित पेरिटोनियल डायलिसिस (पीडी) के साथ इलाज हो रहा है - आपके रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को हटाने का एक तरीका जब आपके गुर्दे पर्याप्त रूप से काम नहीं कर सकते हैं। हेमोडायलिसिस नामक अधिक सामान्य रक्त-फिल्टरिंग प्रक्रिया की तुलना में यह प्रक्रिया रक्त को एक अलग तरीके से फिल्टर करती है।

डॉ. रेड्डी ने सैप्रोपेटेरीन डायहाइड्रोक्लोराइड पाउडर लॉन्च किया

हैदराबाद, भारत और प्रिंसटन, एनजे, डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने आज सैप्रोपेटेरीन डायहाइड्रोक्लोराइड के लॉन्च की घोषणा की। ओरल सॉल्यूशन के लिए पाउडर, 100mg, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) द्वारा अनुमोदित ओरल सॉल्यूशन, 100 मिलीग्राम, यूएसपी के लिए कुवन ® (सैप्रोपेटेरीन डायहाइड्रोक्लोराइड) का एक चिकित्सीय समकक्ष जेनेरिक संस्करण है। डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज के नॉर्थ अमेरिका जेनेरिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क किक्कुची कहते हैं, "हम ओरल सॉल्यूशन के लिए सैप्रोपेटेरीन डायहाइड्रोक्लोराइड पाउडर के इस जेनेरिक संस्करण को लॉन्च करके खुश हैं। छसी समय, यह उत्पाद प्रदर्शित करता है कि हम एक दुर्लभ बीमारी के इलाज के साथ अपने पोर्टफोलियो की चौड़ाई को सक्रिय रूप से बढ़ा रहे हैं।" ओरल सॉल्यूशन के लिए डॉ. रेड्डी का सैप्रोपेटेरीन डायहाइड्रोक्लोराइड पाउडर 100 मिलीग्राम के एक कार्टन में 30 मिलीग्राम यूनिट खुराक पैकेट में उपलब्ध है।

शान्ति का चुम्बन बन जाइये ताकि आप अपनी ओर आकर्षित होने वाली अज्ञान आत्माओं को शान्ति प्रदान कर सकें

A Fastest Growing Pharma Company with a wide range of Products.....

Many More Products
Finest Quality
With all Promotional Inputs!
Latest Attractive Packaging!

DERMAFARM
(A Derma Care Division)

GOLDEN BUSINESS OPPORTUNITY
(Super Stockist, Stockist, Distributors, Experienced Professional)

3rd Party Manufacturing in WHO Plant
A very wide range of latest molecules:

TABLETS	• Itraconazole 100mg / 200mg Capsules
CAPSULES	• Luliconazole 1% Cream
OINTMENTS	• Sertaconazole 2% Cream
LIQUIDS	• Hydroquinone, Tretinoin, Mometasone Cream
AYURVEDIC	• Hydroxyzine 10mg / 25 mg Tablets
SHAMPOO	• Fusidic Acid 2% Cream
SOAPS	• Minoxidil 2% / 5% / 10% Lotion
SUN SCREEN LOTION	• Permethrin 5% Lotion / Cream
	• Clotrimazole Dusting Powder
	• Ketoconazole Shampoo

Our Successfully Running Divisions:
Farma Hub | **Capriana** | **ZankinsOrganics**

Ph: +91-8171011413, 9837187230
Email: info@farmahub.in | farmahub@gmail.com

Star Health files IPO papers with Sebi

New Delhi: Star Health and Allied Insurance Company has filed preliminary papers with capital markets regulator Sebi to raise funds through an initial share sale. The initial public offer (IPO) comprises a fresh issue of equity shares worth Rs 2,000 crore and an offer for sale of up to 60,104,677 equity shares by promoters and existing shareholders, according to the draft red herring prospectus (DRHP). Those offering shares through the offer for sale are promoter and promoter group --Safecrop Investments India LLP, Konark Trust, MMPL Trust-- and existing investors-- Apis Growth 6 Ltd, Mio IV Star, University of Notre Dame Du Lac, Mio Star, ROC Capital Pty Ltd, Venkatasamy Jagannathan, Sai Satish, and Berjis Minoo Desai. The public offer includes a reservation for eligible employees. Proceeds from the fresh issue would be used to augment the company's capital base. Star Health, a leading private health insurer in the country, is owned by a consortium of investors like Westbridge Capital and Rakesh Jhunjhunwala. At present, SBI Life Insurance Company, HDFC Life Insurance Company, ICICI Prudential Life Insurance Company, and ICICI Lombard General Insurance Company are the few insurance companies that are listed on the stock exchanges. Kotak Mahindra Capital Company, Axis Capital, BofA Securities India, Citigroup Global Markets India, ICICI Securities, CLSA India, Credit Suisse Securities (India) Private Limited, Jefferies India, Ambit, DAM Capital Advisors, and IIFL Securities are the merchant bankers to the issue. The equity shares of the company will be listed on the BSE and NSE.

+ PHARMA **VETERINARY+**

TABLETS/CAPSULES/BOLUS (Beta/Non-Beta)
LIQUID/DRY ORALS
ORAL POWDERS
OINTMENTS/CREAMS/SOLUTIONS/ LOTIONS/DUSTING POWDERS
MOUTHWASH/SHAMPOO/PROTEIN POWDER
INJECTABLES

ECTOPARASITICIDALS (FLUMETHRIN, DELTAMETHRIN, CYPERMETHRIN, AMITRAZ Etc.)

AYURVEDIC PREPARATIONS

Trade Enquiries Please Contact : **FOR FRANCHISEE/PCD** 099960-19744. 078762-20222. 094160-32336. 09896063336
FOR THIRD PARTY : 099960-19744. 89300-63336. 78762-20222.

GRAMPUS LABORATORIES
Mfg. Unit: Johron, Near Industrial Area, Kala Amb, (H.P.)
GRAMPUS Email-id: sales.grampus@gmail.com Web Site: www.grampuslaboratories.com



A Name Synonym With...
Topmost Quality & Time Bound Deliveries

WHO-GMP & ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

THIRD PARTY MANUFACTURING FACILITIES AVAILABLE WITH SPARE CAPACITY

TABLETS **BETALACTAM & NON-BETALACTAM**

CAPSULES

ORAL LIQUIDS **OINTMENTS & LOTION** **Dry syrup**

PREMIUM BRANDS
INVITES FRANCHISEE / DISTRIBUTORS / SALES PROMOTERS FOR UNREPRESENTED AREA
More than 100 Brands
Attractive Packing In Blister / Alu - Alu / Strip
Full promotional Support

FERROGOLD Ferrous Sulphate, Zinc Sulphate, Folic Acid and B ₁₂ Tab.	PEPZIT Pepsin & Fungal Diastase	BICY-5 Bicyclol Fumarate	APSOWIN Phenylephrine HCl & Dimethicone HCl
Apsnim-SP Acetaminophen, Paracetamol & Serravallo's	RABIK DSR Rabiprazol + Domperidone	APSTEL Telmisartan	CLAFY-O Cefame & Ofloxacin
PSYCOPIR Piracetam	Aspsride-M1 Olanzapine & Mefenem HCl	HEPTILIN Ticlopidine & Cyproheptadine HCl	LV-FLEX Levofloxacin

Visual-Aids
Catch-Cover




PLEASE CONTACT :
APS BIOTECH PVT LTD

Plot No. 21, Raipur, Bhagwanpur, Roorkee- 247661 (Uttarakhand)
Mob.: 06395947077, 09719311088, 09719411089
E-mail : apsbioth@rediffmail.com, apsrorkee@yahoo.com
Website : www.apsbioth.in

www.medicaldarpan.com

सभी देशवासियों को Happy Independence Day!

महाशिवरात्रि, स्वतंत्रता दिवस
रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी
की
हार्दिक शुभकामनाएं

BRD MEDILABS

Ph.: +(91) - (1795) - 244440, 9805045144
No. 23, DIC Industrial Area, Baddi, Himachal Pradesh - 173 205, India

घर पर रहें, सुरक्षित रहें. "समयानुसार बुरे दिन तो निकल जाते हैं पर वे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं."

We can't spell Success without 'u'

Plusindia

SUPPORTED BY
I.D.R. (India Drug Regulatory) CIMS (Central India Medical Society) CIMS (Central India Medical Society) CIMS (Central India Medical Society)

BUSINESS EXCELLENCE AWARDS FOR PHARMA & HEALTHCARE
7th August 2021
Business Location: Raipur, Roorkee, Noida, New Delhi

*** GMP and SCHEDULE M Certified Unit**
*** WHO MANUFACTURING PLANT**
*** ISO 9001:2015 Certification**

PLUSINDIA Group one among 5000 Best MSME IN 2017 & Business Excellence Award Winner in 2018.

BACIPLUS	Each 5 ml oral suspension contains : Bacillus Clausii Spores (UBBC-07) 2 billion spores. Susp
BIONORM	Thyroxine Sodium 12.5/25/50/75/100/125 mg.
FLOCAD	Calcium Dobesilate Monohydrate 500mg Cap
PEREZ-100 SR	Nitrofurantoin 100mg Tab.
RIF 200/400	Rifaximin 200/400mg Tab.

Beulah Biomedics **GENX MEDICA** (A DIVISION OF PLUSINDIA) **LIFE CARE** HERITAGE FORMULATIONS (P) LTD. *The Art of Difference* **grace PHARMA**

Web site : www.plusindia.in Ph: 9440894154/9885500050
E-mail : plusindia2003@yahoo.co.in, plusindia2003@gmail.com

कविता
पतझड़ के बाद
पतझड़ के बाद
आती है बसंत!
दुख दर्द हो
कितना भी लंबा
होता है आखिर
उसका अंत!
जो कल तक
समझे जाते थे शैतान
आज बने हैं
बहुत बड़े संत!
कालिदास और बाल्मीकि
को भूल ना जाना!
उन्होंने अपने लेखों द्वारा
बदल दिया जमाना!
प्रभु की माया
बड़ी ही अनंत!
जो करते हैं
दान और पुण्य
कहलाते हैं वही
प्रतापी यशवंत!
जो होते हैं दुनिया
में संस्कारवान
कहता जगत
उन्हें ही कुलवंत!
बिगड़े काम
बनाएगा वही
ऊपर बैठा है जो
सर्वज्ञ भगवंत!
- प्रो. शामलाल कौशल
रोहतक, हरियाणा
मो. 9416359045.

With Best Compliments From Xenon Pharma Pvt. Ltd.

XENON
WHO-GMP Certified Plant
The innovative People

For PCD Franchise & Distribution Marketing

- Achieving Customer Satisfaction is Fundamental to our Business, As we provide latest molecules with highest quality standards
- We also Provide Scientific Data, Promotional Inputs & Gift Articles For Ethical Working and Better Promotion
- Our most of the Brands are with Registered Trademark & some molecules are first time in India.
- Assurance of Timely Delivery, High Quality & Cost Effective Product Range
- Competitive Rates and MRPs as per DCGI Norms

WHO GMP CERTIFIED **XENON Pharma Pvt. Ltd.**
Plot No. 79-80, Sec-6A, IIE, Sidcul, Haridwar-249403

Third Party Manufacturing Proposals are also invited

WHO launches List of Priority Medical Devices for Management of Cardiovascular Diseases and Diabetes

The WHO List of Priority Medical Devices for management of cardiovascular diseases and diabetes, released today, will help policy-makers and health-care providers prioritize the selection and procurement of medical devices for these health conditions. It includes more than 500 devices that are required at all levels of the health system, from primary care facilities to highly specialized hospitals, and devices needed for health emergencies such as cardiac arrest, stroke and hypo or hyperglycemic emergencies. The new List provides clinical guidelines for specific conditions, describes the relevant interventions required (e.g. hospitalization, cardiac surgery, intensive care, laboratory testing and medical imaging) and subsequently lists all the medical equipment required such as surgical instrument sets, personal protective equipment, and diagnostic and treatment devices. The ultimate aim of this new List is to help health-care providers implement interventions that are essential for the detection and management of heart conditions and diabetes across the continuum of care, leading to fewer hospitalizations and deaths and the saving of precious health resources. Non-communicable diseases (NCDs) – which include cardiovascular diseases and diabetes – represent 74% of global annual deaths and are responsible for more than 15 million people dying prematurely each year between the ages of 30 and 69. Low- and middle-income countries bear 85% of the burden of these premature deaths, largely because they lack the testing and monitoring equipment needed to screen for, diagnose and treat NCDs. Along with the List, WHO has developed MeDeViS, a medical devices information system and clearing house where biomedical engineers, public policy-makers and hospital managers can find more information on specific medical devices, their use and how to look after them. The site currently lists 1500 devices and will continue to be updated for other diseases and health conditions. The list released today is part of a series of lists prioritizing devices for high-burden diseases, including cancer and COVID-19. These lists are based on the best available evidence about the essential medical devices countries need to prevent, diagnose and treat disease. They should be adapted to national contexts and used to update or develop national lists. Ultimately, the lists are meant to help countries increase the availability and appropriate use of medical devices and to promote access to better quality health services. The full set of lists are the global reference for countries to develop or update their national lists for public procurement and reimbursement of devices for screening, diagnosis and treatment of disease. They also help them to ensure value for money and ultimately to increase access.

सभी देशवासियों को
महाशिवरात्रि
स्वतंत्रता दिवस
रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी
की
हार्दिक शुभकामनाएं

AMIT KUMAR AGARWAL, Mob.: 9837025811
Ram Gulam Shanti Swaroop & Sons, Chandausi, Sambhal (UP)



Contract Manufacturer/Exporter

Ravian BUSINESS ASSOCIATES

Certifications :

- WHO-GMP
- P.P.B.-(Kenya)
- NDA-(Uganda)
- DPML-(Ivory Coast)
- M.O.H.-(Cambodia)
- M.O.H.-(Iraq)
- ISO 9001 : 2015 &
- ISO 14001 : 2015

Production Capacity
Oral Solid 300 Crores Tabs
Hard Gelatin Caps 30 Crores Caps
Oral Liquid 10 Crores Bottles

More Than 200 COPP Available

Business Modules
Direct Export, Contract Manufacturing for Export
Contract Manufacturing, PCD/Franchisee for Pan-India Markets.

Ravian Life Science Pvt. Ltd.
Plot No. 34, Sector-8A, SIDCUL, Haridwar (U.K.) India
Email : ravian.lifescience@gmail.com

01334-230426 +91-9897021203

SANSU
हमारा इयादा, स्वस्थ हो भारत सारा - संसु
संसु हेल्थ केयर की विशाल आयुर्वेदिक श्रृंखला



- आयुर्वेदिक रस
- आयुर्वेदिक तेल
- चूर्ण
- मुरब्बा

SANSU HEALTH CARE
Plot No. 70, Nangla, Firaj Mohanpur, Near- Raj Nagar, Extension Ghaziabad (U.P.)-201003
Email: sansuhealthcare@gmail.com
Website: www.sansuhealthcare.com

Customer Care
7827172824
9015345660
9312908396

Available on:
amazon.com
flipkart.com

वितरक रहित क्षेत्रों में वितरक की आवश्यकता है

Aragen Announces Partnership with Skyhawk Therapeutics, Aimed at Developing Novel Small Molecule Therapeutics that Correct RNA Expression.

Hyderabad, India: Aragen Life Sciences (formerly, GVK BIO), a leading Contract Research and Development Organization (CRDO), headquartered out of Hyderabad, India, announced that it has been selected by Skyhawk Therapeutics, a leader in the development of small molecule therapeutics that correct RNA expression, as its partner in India. Through this collaboration, Aragen will provide Skyhawk with various discovery chemistry and biology servicesolutions. This partnership is focused on accelerating Skyhawk's research pipeline. "We are delighted to have been selected by Skyhawk Therapeutics as its Partner in India. At Aragen, we believe that in every molecule is the possibility for better health. It is with this spirit that we look forward to leveraging Aragen's 20 years of discovery research expertise to help Skyhawk advance the development of its novel small molecule therapeutic targeting some of the world's most intractable diseases.", said Manni Kantipudi, CEO of Aragen.

About Aragen Life Sciences
Aragen Life Sciences Pvt Ltd (Aragen) is a global leader in providing discovery, development and manufacturing solutions for life sciences firms. With a team of over 3100 professionals, and through a network of sites around the world, we offer a seamless, integrated platform to advance customer programs from discovery through commercialization for both small molecule and biologics. Established in 2001, Aragen now serves over 450 customers worldwide across multiple modalities and therapeutic areas.

Forum Swar
Media Medic Communications
9221879147
forum.mediamedic@gmail.com

पेट की समस्याओं से परेशान ?

गैस / एसिडिटी / जलन / बदहजमी /

जैसी पेट की समस्याओं से दिलाए राहत

मुलतानी पचमीना
दैनिक

Regd. Off.: T-10, Okhla Ind. Area, Phase-II, New Delhi-110020
Enq.: 011-41513323 | Web: www.muiltani.org

Gaining Weight This Monsoon? Try These Tips To Stay Healthy

People across the country are enjoying the monsoon season. The onslaught of rains has also increased our craving for lip-smacking foods such as pakoras, samosas, and other delicacies. We need to be careful, too much oil-based foods can also lead to substantial weight gain during the season. But there are some tips which can help you control your weight during the monsoon.

Seasonal food:- It is important to include seasonal vegetables in your diet, however, it will be better if you consume them as salads instead of roasting or frying them. If you don't want the salad or boiling option, you can cook them properly in less oil.

Light dinner:- This is a no-brainer. Almost everyone knows the importance of having a light dinner. The heavier the night food will be, more are the chances of attracting health related issues. You can include veg soup, mixed veg and moong dal in your dinner. However, it is important to have your dinner at least two to three hours before sleeping.

Green tea:- To keep a tab on your health, skip the traditional milk tea in the morning and instead opt for green tea or lemon tea. The alternatives increase your metabolism and lower your body weight. You can have low-calorie cookies with your green tea or lemon tea.

Soaked almonds:- Eating soaked almonds with an empty stomach keeps you healthy and controls your weight. Soaked almonds do not increase body fat.

Choose your breakfast carefully:- You should consider having healthier breakfasts and not focus on consuming too much calories in the morning. Low fat milk with sprouted grains are one of the options for your morning needs.

Fruits:- Eating a banana is said to control your fast food craving. Seasonal fruits such as watermelon, mango and papaya always come in handy when you need to snack.

COVID-19 के प्रबंधन के लिए एंटीबॉडी को आगे बढ़ाने के लिए बायोकाँन बायोलॉजिक्स ने एडेजियो के साथ साझेदारी की

बायोकाँन बायोलॉजिक्स भारत के लिए एक व्यापक रूप से तटस्थ एंटीबॉडी का निर्माण और व्यावसायिकरण करने के लिए और उभरते बाजारों का चयन करें. बायोकाँन बायोलॉजिक्स ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एंटीबॉडी को आगे बढ़ाने के लिए एडेजियो के साथ साझेदारी की बंगलुरु, भारत 26 जुलाई, 2021: बायोकाँन बायोलॉजिक्स लिमिटेड, एक पूरी तरह से एकीकृत बायोसिमिलर कंपनी और बायोकाँन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी ने आज घोषणा की कि अमेरिका स्थित एडेजियो थैरेप्यूटिक्स ने एक विशेष प्रदान किया है। बायोकाँन बायोलॉजिक्स को भारत और चुनिंदा उभरते बाजारों के लिए एडीजी20 पर आधारित एंटीबॉडी उपचार के निर्माण और व्यावसायिकरण के लिए लाइसेंस। ADG20, SARS-CoV-2 और संबंधित कोरोनावायरस के स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करने वाला एक उपन्यास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, Adagio द्वारा COVID-19 के उपचार और रोकथाम दोनों के लिए एकल एजेंट के रूप में वैश्विक नैदानिक विकास में है। प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि ADG20, Adagio का प्रमुख नैदानिक विकास उम्मीदवार, एक वर्ष तक के लिए COVID-19 के खिलाफ तीव्र और टिकाऊ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यह इसे संक्रमणों को रोकने के लिए एक आदर्श एजेंट बना सकता है और COVID-19 से संबंधित अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु को काफी कम कर सकता है। डेल्टा वैरिएंट सहित प्रतिरोधी वैरिएंट को संबोधित करने की अपनी क्षमता के साथ, और आउट पैरेंट सेटिंग में एकल, इंटरमस्क्यूलर इंजेक्शन के रूप में आसानी से प्रशासित होने की क्षमता के साथ, ADG20 विशिष्ट रूप से COVID के लिए एक प्रभावी, सुरक्षित और सुविधाजनक चिकित्सा की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार है।

भारत के पहले बर्ड फ्लू से एम्स-दिल्ली में मौत की सूचना

नई दिल्ली: भारत ने बर्ड फ्लू के कारण मानव मृत्यु का पहला मामला दर्ज किया है, जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करने वाले इन्फ्लूएंजा वायरस का तनाव है। एम्स में भर्ती 11 वर्षीय एक लड़के की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई थी। संपर्क ट्रेसिंग उन लोगों की पहचान करने के लिए की जा रही है जो लड़के के साथ निकटता में रहे होंगे। सूत्रों ने टीओआई को बताया कि हरियाणा निवासी को तेज बुखार और खांसी के साथ एम्स में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के एक सूत्र ने कहा, हमें लगा कि उसे कोविड -19 है। लेकिन जब परीक्षण नकारात्मक साबित हुए, तो आगे की जांच ने स्थापित किया कि लड़का एवियन या पक्षी मूल के इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होने वाले संक्रमण से पीड़ित था। भारत ने पिछले 15 वर्षों में एवियन इन्फ्लूएंजा के कई प्रकोपों का अनुभव किया है, जो मुख्य रूप से कुक्कुट को प्रभावित करता है। हालांकि, बीमारी के कारण मानव मृत्यु का कोई ज्ञात मामला सामने नहीं आया है। आश्चर्य नहीं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ विकास से चिंतित हैं। डॉक्स, परिवार के सदस्य अलगाव में सूत्रों ने कहा कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ख महामारी को नियंत्रित करने और कम करने के लिए देश की अग्रणी एजेंसी ख मृतक लड़के के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को पता लगाने के लिए रोपित किया गया है। लड़के के इलाज में शामिल डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को खुद को अलग रखने और गले में खराश, छींकने और नाक बहने जैसे लक्षणों की रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। इन्फ्लूएंजा वायरस के तनाव की पुष्टि करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। एम्स के एक डॉक्टर ने कहा, घायरस के कई प्रकार होते हैं और कुछ में हल्के लक्षण हो सकते हैं, जबकि अन्य घातक होते हैं। एनसीडीसी इन्फ्लूएंजा वायरस के तनाव का पता लगाने की कोशिश कर रहा है जिससे मौत हुई। डॉक्टर ने कहा कि बर्ड फ्लू मनुष्यों में दुर्लभ था लेकिन अगर यह किसी को प्रभावित करता है, तो मृत्यु का खतरा बहुत अधिक होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि मनुष्यों में बर्ड फ्लू की मृत्यु दर 60% तक है, उन्होंने कहा। डॉक्स, परिवार के सदस्य अलगाव में सूत्रों ने कहा कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ख महामारी को नियंत्रित करने और कम करने के लिए देश की अग्रणी एजेंसी ख मृतक लड़के के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क का पता लगाने के लिए रोपित किया गया है। लड़के के इलाज में शामिल डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को खुद को अलग रखने और गले में खराश, छींकने और नाक बहने जैसे लक्षणों की रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। इन्फ्लूएंजा वायरस के तनाव की पुष्टि करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। एम्स के एक डॉक्टर ने कहा, घायरस के कई प्रकार होते हैं और कुछ में हल्के लक्षण हो सकते हैं, जबकि अन्य घातक होते हैं। एनसीडीसी इन्फ्लूएंजा वायरस के तनाव का पता लगाने की कोशिश कर रहा है जिससे मौत हुई। डॉक्टर ने कहा कि बर्ड फ्लू मनुष्यों में दुर्लभ था लेकिन अगर यह किसी को प्रभावित करता है, तो मृत्यु का खतरा बहुत अधिक होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि मनुष्यों में बर्ड फ्लू की मृत्यु दर 60% तक है, उन्होंने कहा।

फार्मा पीएलआई योजना में 6 वर्षों में 1.96 लाख करोड़ रुपये की निर्यात क्षमता है: मंडावियांपप

नई दिल्ली, फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) में छह वर्षों की अवधि में 1,96,000 करोड़ रुपये की निर्यात उत्पादन क्षमता है। संसद को मंगलवार को सूचित किया गया था। सरकार ने इस साल 24 फरवरी को फार्मास्युटिकल्स के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक में कहा, 'योजना ने योजना के तहत सभी तीन श्रेणियों के उत्पादों में छह साल की अवधि में 1,96,000 करोड़ रुपये की निर्यात क्षमता का अनुमान लगाया है, जिसमें उच्च मूल्य के उत्पाद भी शामिल हैं।' लोकसभा को लिखित जवाब। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना ने लगभग 15,000 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता और 20,000 प्रत्यक्ष और 80,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों की रोजगार क्षमता का अनुमान लगाया है, जो इस योजना की अवधि में क्षेत्र में वृद्धि के परिणामस्वरूप है।

कोरिया का जैव दवा निर्यात विश्व में 7वें स्थान पर है

विशेष रूप से, यह विश्लेषण किया गया है कि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के सूचकांक में COVID-19 के प्रकोप के बाद से काफी सुधार हुआ है, और अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और जापान जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया है।

सियोल: कोरिया का बायो फार्मास्युटिकल निर्यात पिछले साल दुनिया में 9वें से बढ़कर 7वें स्थान पर पहुंच गया। चीफ अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख देशों में COVID-19 महामारी के दौरान आवश्यक दवाओं की एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना महत्वपूर्ण है, इसलिए यह विश्लेषण किया जाता है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन के अवसरों का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन (केआईटीए) के कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट (केआईटीआईआरआई) द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, कोरिया के जैव दवा निर्यात में साल-दर-साल 139.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और प्रसार के बावजूद 5.1 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया। निर्यात रैंकिंग भी दो पायदान ऊपर नौवें से सातवें स्थान पर पहुंच गई।

THIRD PARTY MANUFACTURING
Inspiring & conceptualising Innovation

DM Pharma
www.dmpharma.co.in

SMAYAN HEALTHCARE
www.smayan.in

Saar Biotech
www.saarbiotech.in

<p>Tablets</p> <p>Sachet</p> <p>Hard Gelatin Capsules</p> <p>Cosmetic</p> <p>Roll On</p> <p>Soft Gelatin Capsules</p> <p>Herbal</p> <p>Ointments</p> <p>Injections</p> <p>Lotion</p> <p>Liquids</p> <p>Shampoo</p> <p>Dry Syrup</p> <p>Dusting Powder</p>	<ul style="list-style-type: none"> L-Glutathione & Combination Tablet/Softgel Capsule S-Adenosyl L-Methionine Tablets Citicoline & Combination Tablets Thiocolchicoside & Combination Tablets/Capsules Cefixime & Ofloxacin Tablets Cefpodoxime Tablets Vildagliptin & Combination Tablets Iron/Multivitamin/Vitamin D3/Immunity Booster Spray Itraconazole/Clotrimazole/Terbinafine/Sericonazole Dusting Powder Ursodeoxycholic acid 150/300 mg Tablet Eberconazole/Luliconazole Cream Calamine Lotion 	<ul style="list-style-type: none"> Trypsin & Combinations Tablets Itraconazole Capsule Fexofenadine & Combinations Tablets Thyroxine Tablets Telmisartan & Combinations Tablets Progesterone 100/200/300/400 mg Soft Gelatin Capsules Clotrimazole, Tinidazole & Clindamycin Kit Vagliabase, Metformin & Pioglitazone Tablets Pre-Pro Biotic Capsules Isotretinoin 5/10/20/30/40 Soft Gelatin Capsules BCAA Sachet Methylcobalamin + Combination Tablet/Capsule Collagen Peptidase Sachet
---	---	--

Fssai Approved

WHO Certified Company

GMP Certified Company

ISO Certified Company

Corporate Office: SCO-165, Top Floor, Sec 38 C, Chandigarh
Email: abhinav@dmpharma.org, manager@alainapharma.com
Manufacturing Unit: NH-21, Vill-Bhud, Baddi, Distt-Solan(H.P)



Kurma Miracle Drugs (P) Ltd.
(An ISO 9001:2015 Certified Company)

We are Having Following Facilities :

Tablets	Capsules	Liquid Orals	Veterinary
Cream/Ointment	Medicated Soaps	Oral Powder	
Liquid Injections	Dry Injections	Food Supplements	
Soft-Gelatin Capsule	Beta-Lactum Tablets	Clavulanic All Range	

Shortly Coming with :

Hormonal Tablets Hormonal Liquid Injection

Third Party Manufacturing Available

"Why We?"
Attractive Packing & Best Quality
Latest Molecules & High Efficiency
Competitive Price
Best Promotional Input & Gift Material
Manufactured by: WHO/GMP/ISO Certified Co.
All Products are Approved by D.C.G.I

Your enquiries are welcome for
Franchises /MR/ASM
/PCD Distribution /MR/ASM
with Monopoly Rights in
unrepresented Area



Nairrti (P) Ltd.
It's All Natural
(An ISO 9001:2015 Certified Company)

We have following facilities
Cosmetics & Personal care products

Onion Hair Oil	FACE WASH	Hand Wash	Body Wash
CHARCOAL FACE MASK	FACE CREAM	FACE BLEACH	
Body LOTION	Body Oil	Shampoo	Body Mist
FACE SERUM	HAIR SERUM	FACE SCRUB	SUN SCREEN LOTION
TOOTH PASTE	Gulab Jal	INTIMATE WASH	HAIR REMOVAL CREAM

Ayurvedic Medicine Herbal Products Nutraceuticals Products

TABLETS	CAPSULES	SOFTGEL
SYRUP	OINMENT /CREAM	PROTEIN POWDER
PAIN RELIEF OIL/ROLLON	SANITIZER	

Attractive Packing & Best Quality Products
Third Party Manufacturing
Facility Also Available

Your enquiries are
welcome for
Franchises /MR/ASM
/PCD Distribution
with Monopoly Rights in
unrepresented Area

Also Available in : [Flipkart](#) [amazon](#) [Instagram](#) [Facebook](#)

SCF 504, Top Floor, Motor Market, Sector 13 (Mani Majra), Chandigarh (UT)-160101

info@kurmamiracle.com, info@nairrti.in

www.kurmamiracle.com, www.nairrti.in

6283 2828 12,13,14,15,16,17,18,19,20

तुलसी 101- शक्ति स्वास्थ्य के लिए एक जादुई सामग्री!

तुलसी के पत्ते खाने के क्या फायदे हैं?

क्या आप तुलसी के लाभों और दुष्प्रभावों के बारे में अनिश्चित हैं? तुलसी को हिंदी में 'तुलसी' के रूप में जाना जाता है। भारतीय इसे अपनी पवित्र मान्यताओं के एक हिस्से के रूप में एक इनडोर पौधे के रूप में लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। यह सभी शास्त्रीय घरेलू तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

तुलसी या तुलसी लोकप्रिय रूप से पवित्र जड़ी बूटी के रूप में जानी जाती है। यह कई स्वास्थ्य अनुप्रयोगों में बहुत फायदेमंद है और कई भयानक बीमारियों से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लोग इसे श्वसन और अन्य त्वचा रोगों के उपचार का एक हिस्सा मानते हैं। आम बीमारियों के अलावा, इन छुट्टियों को खाने के फायदे ट्यूमर और कैंसर के नियंत्रण तक भी फैले हुए हैं। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि यह एक बहुत ही कुशल प्रतिरक्षा न्यूनाधिक, कैंसर विरोधी और सुरक्षात्मक एजेंट हो सकता है। **शीर्ष तुलसी के पत्तों के फायदे!** नीचे बताए गए तुलसी के पत्तों के सेवन के कई फायदे हैं:

- 1. स्वस्थ हृदय में सहायक-** तुलसी के पत्तों में यूजेनॉल और विटामिन सी जैसे आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह हृदय की भयानक समस्याओं और यहां तक कि मुक्त कणों के प्रभाव से भी बचाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में यूजेनॉल की मात्रा भी फायदेमंद होती है।
- 2. बुढ़ापा रोधी-** तुलसी के स्वास्थ्य लाभ बुढ़ापा रोधी प्रभावों तक भी विस्तारित होते हैं। तुलसी में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स विटामिन सी और ए बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हैं। वे मुक्त कणों के कारण होने वाली त्वचा की क्षति से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- 3. किडनी स्टोन को ठीक करता है-** यह एक शानदार डिटाक्सिफाइंग एजेंट और हल्का मूत्रवर्धक भी है जो आपके शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करता है। तुलसी की एसिटिक एसिड सामग्री गुर्दे की पथरी के टूटने को नियंत्रित करने में मदद करती है।
- 4. सिरदर्द से राहत देता है-** तुलसी के औषधीय उपयोगों में इसे सिरदर्द के प्राकृतिक राहत के रूप में भी शामिल किया गया है। यह माइग्रेन के दर्द को भी ठीक करने में मदद करता है।
- 5. मुंहासों से लड़ता है-** तुलसी हानिकारक संक्रमणों और

बैक्टीरिया को भी मारती है। इसके तेल का सक्रिय यौगिक यूजेनॉल तेल है। यह सभी प्रकार के त्वचा संबंधी विकार, से प्रभावी रूप से लड़ता है। यह आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के त्वचा संक्रमणों के उपचार में सहायता करता है।

- 6. बुखार को ठीक करता है-** सदियों से तुलसी के स्वास्थ्य लाभ प्रमुख रहे हैं, और यह बुखार के इलाज के लिए एक प्रसिद्ध घटक है। यह एक प्राथमिक घटक है जो विभिन्न घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में मदद करता है।
- 7. आंखों की सेहत-** तुलसी में कई तरह के सूजनरोधी गुण भी होते हैं। यह फंगल, बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण की रोकथाम करके बेहतर नेत्र स्वास्थ्य प्रदान करता है। तुलसी का नियमित सेवन तनाव के स्तर को भी कम करता है और यहां तक कि आंखों में सूजन को भी शांत करता है। अगर आप लैपटॉप या स्मार्टफोन पर लंबे समय तक काम करते हैं, तो तुलसी का सेवन आपकी आंखों के तनाव को कम कर सकता है।
- 8. मौखिक स्वास्थ्य-** तुलसी के पत्तों को एक मौखिक कीटाणुनाशक या प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर के रूप में जारी रखने के लिए लाभ मिलता है। तुलसी मुंह के छालों को ठीक करने में भी कारगर है। यह टैटार, दांतों की कैविटी, सांसों की दुर्गंध और कई अन्य समस्याओं को और ले जाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है।
- 9. श्वसन संबंधी विकारों को रोकता है-** तुलसी एक जादुई जड़ी बूटी है जिसमें सिनेओल, यूजेनॉल और कैम्फोन जैसे यौगिक भी शामिल हैं। यह श्वसन तंत्र से संबंधित सभी प्रकार के फंगल, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण का इलाज करता है। विभिन्न प्रकार के गंभीर श्वसन संबंधी मुद्दों जैसे तपेदिक और ब्रॉन्काइटिस का भी नियमित उपयोग से इलाज किया जा सकता है।
- 10. विटामिन ज्ञ से भरपूर-** हिंदी में तुलसी, यानी तुलसी आवश्यक वसा में घुलनशील विटामिन का भी एक समृद्ध

स्रोत है। ये विटामिन हृदय और हड्डियों के स्वास्थ्य के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तुलसी या पवित्र तुलसी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य! तुलसी के स्वास्थ्य लाभों से परिचित होने के बाद, इसके गुणों और अन्य विशेषताओं के बारे में जानना अनिवार्य है। वे इस प्रकार हैं:

1. तुलसी एक हरी पत्तेदार और सुगंधित जड़ी बूटी है जिसकी उत्पत्ति एशिया और अफ्रीका में हुई है।
2. लोग इसे कई किस्मों में पा सकते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से पुदीना परिवार से संबंधित है।
3. यह जड़ी बूटी कई खाद्य पदार्थों में मसाला के रूप में भी महत्वपूर्ण है।
4. तुलसी और तुलसी के पत्तों का सुगंधित स्वाद इसे चाय में एक आवश्यक घटक बनाता है।
5. तुलसी की एक अन्य किस्म मीठी तुलसी है। यह कई सुपरमार्केट में सूखे रूप में उपलब्ध है और इतालवी व्यंजनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
6. तुलसी के लाभ और दुष्प्रभाव भी काफी हद तक सेवन की मात्रा और खनिजों या विटामिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं।
7. 2 ग्राम तुलसी तुलसी के अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। अधिक मात्रा में तुलसी का सेवन करने के दुष्परिणाम! इसमें कोई शक नहीं कि तुलसी के औषधीय उपयोग और तुलसी के स्वास्थ्य लाभ चमत्कारी हैं। क्या आप जानते हैं कि तुलसी के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? हालांकि

अच्छाई से भरपूर, तुलसी के फायदे और साइड इफेक्ट दोनों का अनुभव कर सकते हैं जैसे:

- 1. गर्भवती महिलाओं को जरूर करना चाहिए परहेज-** गर्भवती महिलाओं को तुलसी के पत्ते खाने के फायदे शायद लागू न हों। जड़ी बूटी के सेवन से कई मामलों में गर्भाशय के संकुचन हो सकते हैं। यह खतरनाक हो सकता है और यहां तक कि महिलाओं में गर्भपात का कारण भी बन सकता

है। ये पत्तियां श्रोणि क्षेत्र और गर्भाशय की ओर रक्त प्रवाह को उत्तेजित कर सकती हैं।

- 2. मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त-** कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि तुलसी रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में भी प्रभावी है। तुलसी के पत्तों के अधिक सेवन से मधुमेह रोगियों को शुरुआत में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।
- 3. प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है-** तुलसी के अत्यधिक सेवन से पुरुषों और महिलाओं दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- 4. खून को पतला करने वाली दवाओं के काम में बाधा डालता है-** इस जड़ी बूटी से भी खून पतला हो जाता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा उपाय के रूप में काम करता है जो ब्लड थिनर नहीं लेते हैं। हालांकि, बाद वाले को प्रतिकूल स्वास्थ्य स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
- 5. दांतों पर दाग-** क्या आप जानते हैं कि बुजुर्ग तुलसी के पत्तों को चबाने की बजाय निगलने की सलाह देते हैं? इन पत्तों में पारा होता है जो दांतों को चबाने पर दाग सकता है। दांतों के मलिनिकरण से बचने के लिए उन्हें निगलना बेहतर विकल्प है।

तुलसी औषधीय उपयोग और अन्य लाभ! क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पत्ते कई प्रकार के होते हैं? वे हैं गुम तुलसी, कृष्ण तुलसी और वन तुलसी। सामान्य तुलसी औषधीय उपयोग हैं:

1. तुलसी के स्वास्थ्य लाभों में विरोधी भड़काऊ और रोगानुरोधी जैसे चिकित्सीय गुण शामिल हैं। यह कार्डियोप्रोटेक्टिव भी है।
2. तुलसी के अन्य औषधीय गुणों में सर्दी और खांसी से तुरंत राहत शामिल है। इसमें एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-एलर्जी गुण होते हैं जो खांसी को नियंत्रित करते हैं।
3. तुलसी शरीर के तनाव के स्तर को भी नियंत्रित करती है और समग्र ऊर्जा को बढ़ाती है।
4. इस जड़ी बूटी का सेवन तनाव, चिंता और थकान के इलाज में मदद करता है।
5. इसमें कई हर्बल फॉर्मूलेसन हैं जो सर्दी, अस्थमा, पलू और यहां तक कि ब्रॉन्काइटिस के इलाज में मदद करते हैं।
6. मौसमी पलू को ठीक करने में भी तुलसी का रस फायदेमंद होता है। नींबू का रस, काली मिर्च और अदरक जैसी सामग्री को मिलाकर लगाने से इन्फ्लूएंजा के लिए तुलसी के पत्ते खाने के फायदे बढ़ जाते हैं।
7. तुलसी के पत्ते का अर्क एंटीकोन्वैलेंट से भरपूर होता है।
8. तुलसी के स्वास्थ्य लाभ को विभिन्न रूपों में मिलाकर मददगार हो सकता है जैसे हर्बल चाय, कैप्सूल और पाउडर। तुलसी के लाभों और दुष्प्रभावों में चिंता और अवसाद के स्तर की रिहाई भी शामिल है। तुलसी की खुराक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी सहायक होती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तुलसी जड़ी बूटी के विभिन्न फॉर्मूलेसन भी शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करते हैं। यह गुर्दे की पथरी से संबंधित समस्याओं के उपचार में मदद करता है। यह विभिन्न प्रकार के मुंह, फेफड़े, त्वचा और यकृत से जुड़े कैंसर से भी सुरक्षा प्रदान करता है।



KRONA-BRETT®
DRUGS & PHARMACEUTICALS

We Welcome your Enquiries well
experienced Pharma Professionals

FRANCHISE / PCD

A Fast Growing Pharma Company
Regional Experienced Professionals
for 48 Over India

If you believe in Mutual
Growth then Come and
Join our Franchise
Network

kronabrett@gmail.com

AziBrett	Aster-OZ	Evrimax-CV	SBON-500
KEXIME O'LB	LESTER-500	BRACHUSE	KRON-100
Krostat	KETAKON-200	Krofine-250	KROSCAB-5
DRUG-516	MODIC	Kronate	Shelter-K27
KRONA-XT	LYCOBRET	NEUROBRET	And Many More Products

Tablets · Capsules · Liquids · Dry Syrup · Injection
Soft Gel Capsules · Ointments · Lotions · Protein Powder

Promotional Items- Visual Aids, Product Folder, Product Cards, Reminder Cards, Leaflets,
Order book, Token Gifts, M.R Bag, Pens, Etc.

Contact for enquires :- 8755555874 / 7017270712



तुलसी कब्ज सफा
Tulsi Kabz Safa Tablet टैबलेट

पुरानी सी पुरानी कब्ज, अफारा, कब्ज के कारण जी मचलाना, सुस्ती, अपच एवं कब्ज संबंधी बीमारियों में अतिलाभकारी है।

खूनी एवं बादी बवासीर के लिए अर्शगुल
(Arshgul Capsule) कैप्सूल

आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के सही मिश्रण से तैयार औषधि। पुरानी सी पुरानी दर्दनाक खूनी एवं बादी बवासीर में लाभदायक है।



कृछ किये बिना ही जय-जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

एक ईमानदार व्यक्ति की आँखें, झूठ को दूर से ही भांप लेती हैं, तथा यह आसानी से धोखा नहीं खा सकते।

नहीं झेलना पड़ेगा पुराने से पुराना



कंधे का दर्द
कसर का दर्द
पुटल का दर्द
कलाई का दर्द

जोड़ो का दर्द क्योंकि अब आ गया है

अर्थोक्रैक कैप्सूल व तेल

जोड़ों एवं मांसपेशियों के दर्द की प्रभावी औषधि आयुर्वेदिक औषधि



गैसोमैक्स
Gasomax Capsule कैप्सूल

शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के सही मिश्रण से तैयार औषधि पुरानी सी पुरानी गैस, अपच, अफारा में अतिलाभकारी है।



जोशअप

शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के सही मिश्रण से तैयार औषधि पुरानी सी पुरानी गैस, अपच, अफारा में अतिलाभकारी है।



Delhi-East : 9999818204, 8010447567 West : 9871175074 Gzb : 9968762878 Sahibabad : 9310002575
Dadri : 7011128266 Khora/Noida : 8920730344 Pilkhua : 8218405972 Hapur : 9759233233
Meerut : 7906111791 Modi Nagar : 9359616355, 8439312813 Aligarh : 8445359884 Hathras : 9997088697
Agra : 9457003100 Rampur : 9997400254 Ballabgarh : 8851944644, 9873235167
Faridabad : 8285642433, 9873393374 Gurugram : 9910120154, 9818388460 Palwal : 9812262360
Ambedkar Nagar : 8318537105 Gorakhpur : 9839075681 Gazipur : 9450718928 Mau : 7275615220

तुलसी आयुर्वेद सेवा संस्थान Mob : **Customer Care**
Email : tulsiayurvedss19@gmail.com **8595345059 8285001781**
Web : www.tulsiayurvedss.com

Available on : [amazon.com](#) [flipkart.com](#)

डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं फ्रेंचाइजी बेसिस पर माल बेचने के लिए सम्पर्क करें

Get Your Visual-Aids Printed Thru OEMR Technology

Services Offered :

- Visual Aids
- Catch Covers
- Leave Behind Cards
- Reminder Cards
- Request Cards
- Physicians Samples Boxes
- Product Cards

World class image outputs
Perfect colour gloss impressions
No problems of colour shifts or colour changes
Out put quality 100 times better than offset printing
Economy at par with Offset printing
No restrictions of minimum no. of copies

We even print 1 Visual Aid if you want.

Medical Writers & Illustrators
Consultants - Health Care Products, Medical Communications, Medico-marketing Support Services

WZ-91 B, Tatarpur, Tagore Garden, New Delhi-110027.
25-Shubh Niletan, A-4 paschim Vihar, New delhi-110063
Ph. 011-25458331, 25264374. Mob. 09871 6969 65, 09971 6969 65
e-mails : medicalwriters01@gmail.com, medicalwriters.illustrators@gmail.com

show that Evrysdi® has a favorable safety profile in patients previously treated with other SMA targeting therapies. Evrysdi also showed to improve SMN protein levels to 2 fold and above in all the patients who have received a previous therapy.

Evrysdi's clinical development program also includes: RAINBOWFISH3 is a study assessing pre-symptomatic infants with Type 1 SMA from birth to 6 weeks old. Preliminary efficacy data from RAINBOWFISH showed that infants treated for 12 months achieved age appropriate motor milestones within the WHO windows for healthy children, including sitting, standing and walking, and improvements in motor function.

V Simpson Emmanuel, CEO and Managing Director, Roche Pharma India says, "The launch of Evrysdi® in India is a fine example of Roche living its purpose of 'Doing now what patients need next'. We are betting big on solving complex challenges related to rare diseases as we believe no patient should be deprived an opportunity to live a healthy life, however complex or rare the disease is. Today heralds a new journey of hope as we are all coming together to add color into the lives of SMA patient

To provide a holistic solution to SMA patients and caregivers, we identified the most important challenges they face throughout their journey and have designed solutions to support them to mitigate those challenges. Through our PSP program, Roche will provide services like: Physiotherapy, Financial counselling, Psychosocial and Nutritional counselling to SMA patients. Patients and caregivers can reach out to us at 1800-202-4755 for information on the PSP program.

Home delivery of Evrysdi®:- SMA patients have weak pulmonary health and find it difficult to visit a hospital to receive therapy, especially in COVID times. Moreover, motor disability adds to this burden and makes it very difficult for these patients and caregivers to travel to receive the drug. To solve this challenge, Roche will provide free home delivery of Evrysdi® to each and every patient following consent from the patient/caregiver and their HCPs. Being the only oral medication for SMA that can be administered in a home setting, this facility will add tremendous convenience to both patients and their caregivers, especially the added challenge Covid-19 poses. Patients, caregivers and HCPs can reach out to us at 1800-202-4755 to know more about Evrysdi's availability and free home delivery.

global launch and in developing a treatment that can be administered at home," said **Archana Vashist Panda, Co-Founder & Director Patient Advocacy, CureSMA Foundation of India.**

Roche Products (I) Pvt. Ltd. Roche Products (India) Private Limited was incorporated in 1994 as a wholly owned subsidiary of the Roche Group, headquartered in Basel, Switzerland. Roche is the world's largest biotech company, with truly differentiated medicines in oncology, immunology, infectious diseases, ophthalmology and diseases of the central nervous system. For more than 60 years, Roche has been committed to making a difference to the lives of people in India. Today, Roche is the leader in oncology treatment in India; apart from cancer, Roche's has innovative medicines in other therapy areas too: transplantation, rheumatoid arthritis (RA), and chronic kidney disease (CKD)-related anaemia. Roche believes in making the latest and most innovative medicines accessible to patients in India in the fastest possible time. For more than 50 years, Roche has been developing medicines with the goal to redefine treatment in oncology. Today, Roche is investing more than ever in our effort to bring innovative treatment options that help a person's own immune system fight cancer. For more information on Roche Pharma India. We focus on improving the lives of patients and their families by ensuring that patients are diagnosed and treated with innovative solutions. We believe in going beyond providing our breakthrough and solutions commit to:

First and only oral treatment for adults and children two months or older suffering from Spinal Muscular Atrophy (SMA), now in India

Kolkata, India: Roche today announced the launch of Evrysdi® (risdiplam), the first and only approved treatment in India for Spinal Muscular Atrophy (SMA) patients. Evrysdi® was first approved by the US FDA in August 2020 and is today available in India within 11 months of the US approval. Since its launch, over 4000 SMA patients across 50+ countries have benefitted from Evrysdi®.

About SMA :- SMA is a severe, progressive rare neuromuscular disease that can be fatal. It affects approximately one in 10,000 live births globally¹ and one in 7744 live births in India² and is the leading genetic cause of infant mortality. SMA is caused by a mutation of the survival motor neuron 1 (SMN1) gene, which leads to a deficiency of SMN protein. This protein is found throughout the body and is essential to the function of nerves that control muscles and movement. Without it, nerve cells cannot function correctly, leading to muscle weakness over time. Depending on the type of SMA, an individual's physical strength and their ability to walk, eat or breathe can be significantly diminished or lost.

About Evrysdi® and global clinical trials :- Evrysdi® is administered daily at home orally (it is supplied as powder which is constituted into a liquid solution and taken once daily by mouth or feeding tube if required) and is designed to treat SMA by increasing production of the Survival Motor Neuron (SMN) protein. It is approved for the treatment of spinal muscular atrophy (SMA) in adults and children 2 months of age and older. Evrysdi® is being studied in more than 450 people as part of the broadest, large and robust clinical trial program in SMA. The program included newborn infants to adults

aged 60 years with varying symptoms and motor function, and is the only program that has included those that were previously treated for SMA with another medication. Evrysdi® was approved by Indian Health Authorities after reviewing its efficacy & safety data from three global clinical studies designed to represent a broad spectrum of people living with SMA:

1. FIREFISH3 in symptomatic infants aged 1 to 7 months with Type 1 SMA
2. SUNFISH3 in children and adults aged 2 to 25 years. SUNFISH is the first and only placebo-controlled trial to include adults with Types 2 and 3 SMA. Evrysdi® showed clinically-meaningful improvements in motor function across these two clinical trials in people with varying ages and levels of disease severity, including Types 1, 2, and 3 SMA. Infants achieved the ability to sit without support for at least 5 seconds, a key motor milestone not normally seen in the natural course of the disease. Evrysdi® also improved survival without permanent ventilation at 12 and 23 months, compared to natural history. Evrysdi maintained the ability to swallow and feed orally in the majority of the infants after 2 years of therapy. This is a unique characteristic of Evrysdi that was not observed with other medications for SMA.
3. JEWELFISH3 (interim data) is a study assessing people with any SMA type and disease severity who have previously been treated with other SMA targeted therapies. This study enrolled the broadest patient population ever studied in an SMA trial. Data from the JEWELFISH study, which included a diverse patient population with a high degree of motor impairment,

patients in India with the launch of Evrysdi®, the first and only approved treatment in India for patients living with SMA. This also marks our foray into rare disease treatment in India, he added."

Patient Support Program (PSP) to drive access. To ensure every patient gets access to this disease modifying therapy, Roche is announcing its Patient Support program (PSP) for Evrysdi®. Through this program:

- In the first two years of treatment, Roche provides three bottles free for every two bottles bought by the patient
- From the third year onwards, Roche provides two bottles free for every one bottle bought by the

AN AYURVEDIC PROPRIETARY MEDICINE

अयुष्मैलान

वन्द्य तुलसी

(गिलोय-तुलसी वटी)

IMMUNITY BOOSTER TAB.

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये एवं गैस, एसिडिटी से छुटकारा पाएं।

Enquires Welcome for Marketing & Distribution Right in Unrepresented Areas
CONTACT FOR THIRD PARTY MANUFACTURING # 9811437733, 7500164848

अयुष्मैलान हेल्थकेअर
Web: www.ayushmaehc.com
Email: ayushmaehc@gmail.com
Helpline: +91-7217245242

patients in India with the launch of Evrysdi®, the first and only approved treatment in India for patients living with SMA. This also marks our foray into rare disease treatment in India, he added."

Patient Support Program (PSP) to drive access. To ensure every patient gets access to this disease modifying therapy, Roche is announcing its Patient Support program (PSP) for Evrysdi®. Through this program:

- In the first two years of treatment, Roche provides three bottles free for every two bottles bought by the patient
- From the third year onwards, Roche provides two bottles free for every one bottle bought by the

patients in India with the launch of Evrysdi®, the first and only approved treatment in India for patients living with SMA. This also marks our foray into rare disease treatment in India, he added."

Patient Support Program (PSP) to drive access. To ensure every patient gets access to this disease modifying therapy, Roche is announcing its Patient Support program (PSP) for Evrysdi®. Through this program:

- In the first two years of treatment, Roche provides three bottles free for every two bottles bought by the patient
- From the third year onwards, Roche provides two bottles free for every one bottle bought by the

patients in India with the launch of Evrysdi®, the first and only approved treatment in India for patients living with SMA. This also marks our foray into rare disease treatment in India, he added."

Patient Support Program (PSP) to drive access. To ensure every patient gets access to this disease modifying therapy, Roche is announcing its Patient Support program (PSP) for Evrysdi®. Through this program:

- In the first two years of treatment, Roche provides three bottles free for every two bottles bought by the patient
- From the third year onwards, Roche provides two bottles free for every one bottle bought by the

Three values sustain our culture and further our quest to help people achieve good health and longevity: integrity, courage and passion. We aspire to embody these values in everything we do. **Our Purpose** We believe it's urgent to deliver medical solutions right now – even as we develop innovations for the future. We are passionate about transforming patients' lives. We are courageous in both decision and action. And we believe that good business means a better world.

Visit rocheindia.com
- S. Rajan
Chief Corporate Affairs and Communications Officer
Mobile: +91 9930109372
Email: rajan.s@roche.com

Ph.: 42351820
42351821



Delhi Pharma Agencies
PHARMACEUTICAL & SURGICAL DISTRIBUTORS

Flat No. 104, A 37-38-39, 1st Floor,
Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Vijay Kumar Puri
Sham puri

(S) 23861813
55312460
(R) 23844006
Mobile : 9810541813



FAIRDEAL MEDICAL AGENCIES

1702, BHAGIRATH PALACE, CHANDNI CHOWK, DELHI-6

Mohd. Rashid
9773753158

DI.No. SLP115616




SUPREME MEDICOS

Shop No.: T-663, Gali No. 10,
Near Jain Mandir, Gautampuri, Delhi-110053

Sahil Chhabra
9562332219

B.R. Chhabra (Timmy)
9910877788



Chemist Bureau
CHEMIST & COSMETICS
PANEL ON NDPL

9, Vishal Market, Bhai Parmanand Colony (West), Delhi-9
E-mail : chemistbureau@gmail.com

Kamlesh Gupta
Ankit Gupta



Haryana Medical Hall
Stockists Of : Ayurvedic, Homeopathic,
General & Patent Medicine

1712/23, Mangal Building No.2, Bhagirath Palace, Delhi-6
Ph. : 43081651, 23865437, 9810433464

Naresh Makhija

9810181910
9999492393
9999492893



NIKHIL MEDICOS

711, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Ph. : 65166656, 9212018593
Fax : 011-27601061
e-mail : nareshmakhija1961@yahoo.co.in

Bindu Jha


Ph.: 8826302050
9953284005



Om Sai Medicose
MEDICINES, SURGICAL & COSMETICS

487/25, Peera Garhi, (Near Shiv Mandir) New Delhi -110087

Devesh Goyal
Mob. : 9810035939



Pranam Medical & General Stores

11-QU Block, DDA Shopping Complex,
Uttri Pitam Pura, New Delhi-110088
Tel. : 27345073

MDRC

Vimal Mishra
Operation Head
Cell. : 9760424669

MITTAL Diagnostic & Research Center Pvt. Ltd.

Regd. Office :
NU-23A, Peetam Pura
New Delhi-110048

Corporate Office :
Opp. Eden Garden Banquet Hall
Kishanpur Tiraha, Aligarh (U.P.)
Ph. 0571-2741455
E-mail : vimalmishra3nov@sify.com
bbdms@live.com

Shanti Lal Kapoor

M. : 9810189883
Off. : 011-23860116

SHREE KRISHNA PHARMA
Pharmaceuticals Distributors

Auth. Distributor
AIMIL, Abbott, Biochem
B.E., Macleods, Rapross
Win - Medicare

1711, Ground Floor
Mangal Building,
Bhagirath Palace, Delhi-110006
Email : skp_bp_delhi6@yahoo.com

27682934

Vardhman Medicos

CHEMISTS, DRUGGISTS AND COSMETICS

A Home For Genuine Allopathic,
Homeopathic & Ayurvedic Medicines

A-18, Rajan Babu Road (Near Metro Station), Adarsh Nagar, Delhi-33

Ph. : 9530518217
2700251-Ext-632
0172-5069232

DEEP MEDISONS
Chemists & Druggists

Booth No. 821-B, Sector 22-A, Chandigarh
(Opposite Parade Ground)
E-mail : itgo.goal@gmail.com

SPECIAL DISCOUNT FOR CARDIO & SUGAR PATIENTS
DISCOUNTED RATES FREE HOME DELIVERY

Ph. : 27396435
Mob. : 9818134930



ANAND MEDICOS

FREE HOME DELIVERY

4528/12, Jai Mata Market, Tri Nagar, Delhi-110035
(Near Garg Nursing Home)

NAVIN PHARMA
WHOLE SALE CHEMIST & DRUGGIST

Amar Nath Sethi
9212549500

Mohit Sethi
9212017162

Vivek Sethi
9818431332

23874812
23863120

1725, 2nd Floor, Ram Gali,
Bhagirath Palace, Delhi-110006

Super Medicos
Druggist & Cosmetics

Services: Nebulisation, Sugar Test & Blood Pressure
Indian & Imported Medicines, General & Operation Items, Cancer Drugs,
Orthopedic, HIV Drugs, Surgical Items & All Vaccines

Free Home Delivery
Laxmi Nagar

M : 9999115075, 9650595647

Shop No. 3, R-171, Gali No. 8, Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092

Lifeline Medicare

Total Medicines :- Liver, Kidney, Cancer, Heart & Surgical Items

09990157007, 09990167007, 0124-4111771

Opp. Medanta Medicity Hospital, Near Gurudwara, Gurgaon (Hr.) India

Vidhyut Shah
M. 7383154744
9638045723

Parshwa Medical Store

एवाओ Medicine, Ayurvedic, Surgical, Cosmetic

C-2, Suvridha Shopping Center,
Nr. Vejalpur Bus Stop, Vejalpur, Ahmedabad-51.

Ilyas Mo. 9824615651
Tahir Mo. 9722615061
Azaz Mo. 9722691954



NAVRANG
MEDICAL & PROVISION STORE

Be Happy

Malav Talav, Near. Bus station
Road, Dholka - 382225

Nigam Pujara
☎ : 7878757526
M. : 7878757562

Piyush Pujara
☎ : 9574535596



Laxmi Medicines

G-26-B, Satyam Status, Ramdevnagar,
Satellite, Ahmedabad.

* झी होम डिलीवरी

(M) 9824030378 (M) 7405762673
(M) 8780151136

Authorised Dist.
Sethan Products



SHIVAM SURGICAL
All Surgicals Products & Instruments

791, Green Field, Opp. Relief Shopping Center, Nr. G.P.O. Relief Road, Ahmedabad.
E-mail : shivamsurgical378@gmail.com
lmkartavya143@gmail.com

Jignesh Dudani

केतन 33790 5604



Nilkanth Medical Agency

8, Tulsi Kunj Society, India Colony Road, Bapunagar, Ahmedabad-24.

ADR
ADVANCE DRUG RECKONER
The most reader friendly drug reference magazine

BN
Pharmaceuticals

Kiama Nutraceuticals Pvt.Ltd.

ElXiri

Kiama Lifesciences

SKIN SPECIALIST PRODUCTS

Nairrti (P) Ltd.

Kurma Miracle Drugs (P) Ltd.

मात्र 250/- में घर बैठे ADR मंगवाएँ

Contact: 9410434811, 9258906451, 9027175115

टॉरेंट फार्मा Q1 परिणाम:
शुद्ध लाभ 2.8% बढ़कर 330 करोड़ रुपये

नई दिल्ली: ड्रग फर्म टॉरेंट फार्मास्ट्रिकल्स ने मंगलवार को जून में समाप्त तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 330 करोड़ रुपये की सूचना दी। टॉरेंट फार्मास्ट्रिकल्स ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 321 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। विचाराधीन तिमाही के लिए कंपनी के परिचालन से समेकित राजस्व 2,134 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले इसी अवधि में यह 2,056 करोड़ रुपये था। टॉरेंट फार्मा ने कहा कि भारत का राजस्व 1,093 करोड़ रुपये है, जो 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही में 18 प्रतिशत बढ़ा है।

सभी देशवासियों को
महाशिवरात्रि, स्वतंत्रता दिवस
रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी
की **हार्दिक शुभकामनाएँ**

ATUL AGARWAL
Mob.: 7060003666
Radha Govind Traders, Haldwani, Nainital (UK)

GAURAV MEDICOS
Bulandshahr
Super Stockist

Kimberly-Clark

Amami

wipro

EVEREADY

Dabur

शुद्ध प्लस
SANITARY NAPKINS

9358302336, 9536337036

Short story
Hard. Work. Pays

There was a man. He was hardly matriculate and was very poor. He went to an office and requested the chairman of the big company to give him the job of peon. The chairman said to him.... If you clean the floor of my office to my satisfaction, I shall definitely appoint you peon in my company. The man cleaned the floor and the chairman was satisfied and told him that henceforth you would be the employee of the company. Chairman said to that man to give him his email id. The man said.... sir, I do not know anything about it, I don't have any email id and moreover I cannot afford to spend money on the preparation of email ID. The chairman said... my boy! I am sorry, ours is a very big company, we do not and cannot appoint anyone on any job without email ID. Therefore, I cannot give you job here.

The man came out of the office with great disappointment. He could not understand what to do under such circumstances. He had 500 rupees in his pocket. He thought of a plan. With this amount he purchased tomatoes and these tomatoes were sold within 2 hours. With 500 rupees he once again purchased tomatoes and they , too, were sold within 2 hours. With that amount he purchased tomatoes for the third time and they were also sold within 2 hours. In the evening when he made all calculations, he found that his 500 rupees have increased to 1500 rupees. He did the same thing for some days. His income increased. Then he purchased a Rehri and start-

ed selling different vegetables by moving in different areas of the city. All this increased his income many folds. Now his economic condition became so satisfactory that he purchased three tempos and employed some persons to sell the vegetables on large scale. It further increased his income, then he purchased 3 trucks and became wholesale seller of different vegetables. He was considered to be a successful businessman. He purchased a big kothi and a car. His family enjoyed the life with him. One day he called an agent of life insurance company for the insurance of his kothi as well as his life. As the agent was filling up the proforma, he asked the man about his email id. The man replied that he had no email ID. The agent said... sir, it is necessary to know about your email ID. Without it I cannot proceed, otherwise you have lost a golden chance to make progress in life. Email IDs most required in every matter. The man said... if I had email ID, I would still be working as a peon in that company. Then he narrated the whole story to that agent. After listening to him, the agent left the room.

If luck does not favour us at one place in some way, we should not feel disappointed. We should hope for the best. God opens some other gate of success for us as in the case of vegetable seller. Hard work is most important to be successful in life.

Professor Sham Lal Kaushal
Mobile 9416359045

AstraZeneca की दूसरी खुराक दुर्लभ रक्त के थक्कों का जोखिम नहीं बढ़ाती: अध्ययन

एस्ट्राजेनेका द्वारा संचालित और वित्त पोषित अनुसंधान ने एंग्लो-स्वीडिश दवा निर्माता के वैश्विक सुरक्षा डेटाबेस का उपयोग करते हुए 30 अप्रैल तक पहली या दूसरी खुराक के प्रशासन के 14 दिनों के भीतर होने वाले मामलों का मूल्यांकन किया। एस्ट्राजेनेका के सीओवीआईडी-19 शांट ने दूसरी खुराक के बाद लोगों में कम प्लेटलेट्स वाले दुर्लभ रक्त के थक्कों के मामलों में वृद्धि नहीं की, बुधवार को एक अध्ययन में दिखाया गया, संभावित रूप से टीके के दुष्प्रभावों पर कुछ चिंताओं को कम करता है।

लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित डेटा में पाया गया कि टीके की दूसरी खुराक के बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) के साथ घनास्त्रता की अनुमानित दर टीका लगाए गए लोगों में 2.3 प्रति मिलियन थी, जो कि टीकाकरण नहीं किए गए लोगों में देखी गई विशिष्ट दर के बराबर है, एस्ट्राजेनेका कहा। पहली खुराक के बाद यह दर 8.1 थी।

एस्ट्राजेनेका के नेतृत्व और वित्त पोषित अनुसंधान ने एंग्लो-स्वीडिश दवा निर्माता के वैश्विक सुरक्षा डेटाबेस का उपयोग करते हुए 30 अप्रैल तक पहली या दूसरी खुराक के प्रशासन के 14 दिनों के भीतर होने वाले मामलों का मूल्यांकन किया।

सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 39 पूरी तरह से टीकाकरण वाले छात्र COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं

अधिकारियों ने कहा कि 175 छात्रों का दूसरा जल्था 6 जून को आया था, जिनमें से उसी दिन सीओवीआईडी-19 के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। जब मामले बढ़ने लगे, तो अधिकारियों ने 17 जुलाई को उस बैच के सभी छात्रों के लिए COVID परीक्षण किए। अस्पताल के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, 6 जून से अब तक कुल 39 मेडिकल छात्रों ने सीओवीआईडी-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। उन सभी ने टीके की दो खुराक ली थी। कारात्मक परीक्षण करने वाले छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि यहां के सरकारी मेडिकल अस्पताल के कम से कम 39 पूरी तरह से टीकाकरण वाले मेडिकल छात्रों ने सीओवीआईडी-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। COVID-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण बंद हुए मेडिकल कॉलेज को फिर से खोल दिया गया और छात्रों के पहले बैच ने परिसर में वापस जाने की सूचना दी। अधिकारियों ने कहा कि 175 छात्रों का दूसरा जल्था आया था, जिनमें से उसी दिन सीओवीआईडी-19 के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। जब मामले बढ़ने लगे, तो अधिकारियों ने उस बैच के सभी छात्रों के लिए COVID परीक्षण किए। उनमें से 20 के वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि छात्रों के तीन बैच परिसर में वापस रह रहे हैं क्योंकि उनकी परीक्षा चल रही है। इन बैचों के उन्नीस छात्रों ने COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। अस्पताल के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, अब तक कुल 39 मेडिकल छात्रों ने सीओवीआईडी-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। उन सभी ने टीके की दो खुराक ली थी। सकारात्मक परीक्षण करने वाले छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें विशेष रूप से व्यवस्थित कमरों में सिद्धांत परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। उनके अलावा, मेडिकल कॉलेज परिसर में डेंटल कॉलेज के 17 छात्रों ने भी कोरोनावायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, उन्होंने कहा।

Adhya
Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

A Symbol of Excellence in Health Care To Serve Quality Medicines.

Excise Free Zone

Beta & Non Beta

Alu Alu Pack Available

A Wide Range of Syrups, Tablets Capsules, Dry Syrup

Come Join Hands with us:

- Bulk order manufacturing.
- Loan licence arrangement.
- Third party/marketed by arrangement.
- For sole marketing rights for unrepresented areas.

Interested parties may contact :
KULDEEP SINGH
Mob. : 09927034515, 9837034518

Adhya Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Believe in Quality & Service

197, Raipur, Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar (U.K.)
E-mail : adhyapharmaceuticals@gmail.com
adhyaprinting@gmail.com

सभी देशवासियों को
महाशिवरात्रि, स्वतंत्रता दिवस
रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी
की **हार्दिक शुभकामनाएँ**

ASHISH GUPTA, Mob.: 9897724222
Gupta Medical Hall Chemist & Druggist, West End, Bangor (UP)

PAIN JUST RELIEF
फैसी जस्ट रिलीफ गेल SUPER STRENGTH GEL 300M

Purederm
For Radiant & glowing skin

प्योरडर्म + क्रीम
For Prompt relief from

More Fair मोर फेयर
Multi Purpose Skin Cream

Pureklean
All in one Cream

Puremed Biotech
Consumer Care Division

Wanted Distributors For All India, Nepal & Bhutan

Genrater House, SCO No-6, Opposite City Look Hotel, Sai Road Baddi- 173205(H.P.)
www.puremedbiotech.in, Email : puremedbiotech@gmail.com
Contact Number: +91-93186-28899, +91-97367-01313

Second dose of COVID-19 vaccine should not be skipped Stanford University School of Medicine study says

Washington: The second dose of a COVID-19 vaccine induces a powerful boost to a part of the immune system that provides broad antiviral protection, according to a study led by investigators at the Stanford University School of Medicine. The findings published in the journal Nature strongly supports the view that the second shot should not be skipped. The study was designed to find out exactly what effects the vaccine, marketed by Pfizer Inc., has on the numerous components of the immune response. The researchers analyzed blood samples from individuals inoculated with the vaccine. They counted antibodies, measured levels of immune-signalling proteins and characterized the expression of every single gene in the genome of 242,479 separate immune cells' type and status. "Despite their outstanding efficacy, little is known about how exactly RNA vaccines work," said Bali Pulendran, PhD, professor of pathology and microbiology and immunology. "So we probed the immune response induced by one of them in exquisite detail." "The world's attention has recently been fixed on COVID-19 vaccines, particularly on the new RNA vaccines," said Pulendran, the Violetta L. Horton Professor II. He shares senior authorship of the study with Kari Nadeau, MD, PhD, the Naddisy Foundation Professor of Pediatric Food, Allergy, Immunology, and Asthma and professor of paediatrics, and Purvesh Khatri, PhD, associate professor of biomedical informatics and biomedical data science. The study's lead authors are Prabhu Arunachalam, PhD, a senior research scientist in Pulendran's lab; medical student Madeleine Scott, PhD, a graduate student in Khatri's lab; and Thomas Hagan, PhD, a former postdoctoral scholar in Pulendran's Stanford lab and now an assistant professor at the Yerkes National Primate Research Center in Atlanta. "This is the first time RNA vaccines have ever been given to humans, and we have no clue as to how they do what they do: offer 95% protection against COVID-19," said Pulendran. Traditionally, the chief immunological basis for approval of new vaccines has been their ability to induce neutralizing antibodies: individualized proteins, created by immune cells called B cells, that can tack themselves to a virus and block it from infecting cells. "Antibodies are easy to measure," Pulendran said. "But the immune system is much more complicated than that. Antibodies alone don't come close to fully reflecting its complexity and potential range of protection." Pulendran and his colleagues assessed goings-on among all the immune cell types influenced by the vaccine: their numbers, their activation levels, the genes they express and the proteins and metabolites they manufacture and secrete upon inoculation. One key immune-system component examined by Pulendran and his colleagues were T cells: search-and-destroy immune cells that don't attach themselves to viral particles as antibodies do but rather probe the body's tissues for cells bearing telltale signs of viral infections. On finding them, they tear those cells up. In addition, the innate immune system, an assortment of first-responder cells, is now understood to be of immense importance. It's the body's sixth sense, Pulendran said, whose constituent cells

are the first to become aware of a pathogen's presence. Although they're not good at distinguishing among separate pathogens, they secrete "starting gun" signalling proteins that launch the response of the adaptive immune system- the B and T cells that attack specific viral or bacterial species or strains. During the week or so it takes for the adaptive immune system to rev up, innate immune cells perform the mission-critical task of holding incipient infections at bay by gobbling up -- or firing noxious substances, albeit somewhat indiscriminately, at -- whatever looks like a pathogen to them. The Pfizer vaccine, like the one made by Moderna Inc., works quite differently from the classic vaccines composed of live or dead pathogens, individual proteins or carbohydrates that train the immune system to zero in on a particular microbe and wipe it out. The Pfizer and Moderna vaccines instead contain genetic recipes for manufacturing the spike protein that SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, uses to latch on to cells it infects. In December 2020, Stanford Medicine began inoculating people with the Pfizer vaccine. This spurred Pulendran's desire to assemble a complete report card on the immune response to it. The team selected 56 healthy volunteers and drew blood samples from them at multiple time points preceding and following the first and second shots. The researchers found that the first shot increases SARS-CoV-2-specific antibody levels, as expected, but not nearly as much as the second shot does. The second shot also does things the first shot doesn't do, or barely does. "The second shot has powerful beneficial effects that far exceed those of the first shot," Pulendran said. "It stimulated a manifold increase in antibody levels, a terrific T-cell response that was absent after the first shot alone, and a strikingly enhanced innate immune response." Unexpectedly, Pulendran said, the vaccine -- particularly the second dose -- caused the massive mobilization of a newly discovered group of first-responder cells that are normally scarce and quiescent. First identified in a recent vaccine study led by Pulendran, these cells- a small subset of generally abundant cells called monocytes that express high levels of antiviral genes -- barely budge in response to actual COVID-19 infection. But Pfizer vaccine-induced them. This special group of monocytes, which are part of the innate immune system, constituted only 0.01 per cent of all circulating blood cells before vaccination. But after the second Pfizer vaccine shot, their numbers expanded 100-fold to account for a full 1 per cent of all blood cells. In addition, their disposition became less inflammatory but more intensely antiviral. They seem uniquely capable of providing broad protection against diverse viral infections, Pulendran said. "The extraordinary increase in the frequency of these cells, just a day following booster immunization, is surprising," Pulendran said. "It's possible that these cells may be able to mount a holding action against not only SARS-CoV-2 but against other viruses as well." Pulendran is a member of the Institute for Immunity Transplantation & Infection and Stanford Bio-X and a faculty fellow of Stanford ChEM-H.3

सभी देशवासियों को
महाशिवरात्रि
स्वतंत्रता दिवस
रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी
की
हार्दिक शुभकामनाएं

NAMAN GUPTA
Mob.: 8272819971
Nation Medical Agencies, Moradabad (UP)

जैसा मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नये वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने तथा वृद्ध शरीर को त्यागकर नये शरीर को प्राप्त करती है.

वास्तविक दुनिया के साक्ष्य: फार्मा में राजस्व बढ़ाने की कुंजी

विभिन्न स्रोतों से एकत्रित वास्तविक दुनिया के डेटा का उपयोग रोगी के स्वास्थ्य या स्वास्थ्य देखभाल के वितरण पर उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करता है। इन डेटा बिंदुओं का विश्लेषण किसी चिकित्सा उत्पाद के उपयोग, संभावित लाभों या जोखिमों के बारे में नैदानिक साक्ष्य बनाता है। वास्तविक दुनिया के साक्ष्य: फार्मा में राजस्व बढ़ाने की कुंजी द्वारा गौरव गुप्ता पिछले वर्षों में, वास्तविक दुनिया के साक्ष्य नैदानिक परीक्षणों और जोखिम मूल्यांकन के डिजाइन को अनुकूलित करने में सफल साबित हुए हैं। तकनीकी रूप से उन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के आगमन के साथ, फार्मा दुनिया तेजी से परिणाम-आधारित रोगी देखभाल प्रदाता के रूप में परिवर्तित हो रही है। पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली ने हमेशा चिकित्सा हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया है जो काफी हद तक रोगी के जीनोमिक्स, व्यवहार और पर्यावरणीय कारकों

पर आधारित थे। अब इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर), चिकित्सा दावों, उत्पादों और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों सहित कई स्रोतों से प्राप्त वास्तविक दुनिया के डेटा पर अधिक जोर दिया जा रहा है। ये डेटा बिंदु महत्वपूर्ण RWE अध्ययन बनाते हैं जो उत्पाद चक्र में मूल्य जोड़ते हैं। इन डेटा स्रोतों की समझ के साथ, फार्मा कंपनियां प्रभावी आरडब्ल्यूई अनुप्रयोगों के लिए रणनीतियां भी तैयार कर रही हैं जो नैदानिक अध्ययन के पूरक हैं। यह दवा कंपनियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए आरडब्ल्यूई पद्धति, दिशानिर्देशों और मानकों को परिभाषित करने और लागू करने की अथुरी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा को तेज करता है। इसके अलावा, यह शांतिपूर्णताओं को वास्तविक दुनिया के अध्ययन में बहुत पहले चरण में खामियों की पहचान करने में मदद करेगा और उन्हें सुधार का मौका देगा।

Kiama Nutraceuticals Pvt. Ltd.

Kiama Lifesciences

THIRD PARTY MANUFACTURING & PCD PHARMA FRANCHISE
AYURVEDIC MEDICINE FOR DOMESTIC & INTERNATIONALS MARKET

PHARMACEUTICALS/NUTRACEUTICALS

ENQUIRES ARE WELCOME
FOR THIRD PARTY CONTRACT MANUFACTURING

Contact us:
E-mail : kiamalifesciences@gmail.com
Call: 09878892113, 07707828113

WIDE RANGE WITH:-

Tablets Capsules Herbals Oral Liquid
Ointment Lotion & Nasal Spray Food & Feed Supplement

Small & Bulk Batch For Available
ALLOPATHIC & AYURVEDIC PRODUCTS
& We Invited For Export Third Party Manufacturing

KIAMA LIFESCIENCES
(An ISO 9001:2015 CERTIFIED CO.)
SCF NO. 4, 2ND FLOOR, SECTOR-2, PANCHKULA (HRY.)-134112

Manufactured:
KIAMA NUTRACEUTICALS PVT. LTD.
Plot No: 197, HSIIDC, Industrial Area, Alipur, Barwala, Panchkula, (Haryana)-134118, India.
E-mail: kiamanutraceuticals@gmail.com

भारत संयंत्र के लिए आयात अलर्ट के बावजूद जुबिलेंट फार्मा की रेटिंग हेडरूम स्वस्थ: फिच

फिचसिंगापुर: जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड (जेपीएल) अच्छी रेटिंग हेडरूम बनाए रखेगी क्योंकि भारत में अपने जेनेरिक फॉर्मूलेशन प्लांट के लिए हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आयात अलर्ट का प्रभाव सीमित होगा। फिच रेटिंग ने कहा है। जेपीएल के पास बड़े फार्मास्युटिकल साथियों की तुलना में कम उत्पादन सुविधाएं हैं लेकिन यह जेनेरिक फॉर्मूलेशन पर कम निर्भर है और प्रभावित संयंत्र की संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल सीमित बिक्री है जो प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। जेपीएल के रुडकी संयंत्र पर प्रतिकूल नियामक कार्रवाई 2019 में एक चेतावनी पत्र का अनुसरण करती है। पहले के नियामक वर्गीकरण ने संयंत्र से नई दवाओं की मंजूरी को प्रभावित किया था लेकिन मौजूदा उत्पादों की बिक्री को अनुमति थी। फिच ने कहा कि नवीनतम आयात अलर्ट जेपीएल को रुडकी संयंत्र में निर्मित उत्पादों को संयुक्त राज्य अमेरिका में बेचने से प्रतिबंधित कर देगा, कुछ छूट वाले उत्पादों को छोड़कर जिन्हें अतिरिक्त गुणवत्ता जांच को पूरा करना होगा। जेपीएल की मूल कंपनी जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड (जेपीएचएल) अपने समेकित राजस्व का करीब 80 प्रतिशत उत्तरी अमेरिका से प्राप्त करती है, लेकिन जेनेरिक फॉर्मूलेशन व्यवसाय समेकित राजस्व का केवल 24 प्रतिशत है। इसके अलावा, जेनेरिक फॉर्मूलेशन सेगमेंट के भीतर, जेपीएल के यूएस प्लांट में यूएस की अधिकांश बिक्री होती है। रुडकी से छूट प्राप्त उत्पादों को बाहर करने के बाद

रसायनों के कारोबार से नकदी प्रवाह को छोड़कर) 2. 2 गुना है, जो इसे फिच की 3.50 की नकारात्मक रेटिंग संवेदनशीलता के खिलाफ महत्वपूर्ण हेडरूम देता है। बाँझ उत्पादों (सीएमओ) और सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के अनुबंध निर्माण जैसे क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि ने जेपीएल के उच्च-मार्जिन रेडियोफार्मा व्यवसाय में कोरोनोवायरस महामारी और प्रतिस्पर्धी दबाव से लाभप्रदता पर प्रभाव को सीमित कर दिया। फिच ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में सीएमओ कारोबार में क्षमता का विस्तार करने की घोषणा के अनुरूप जेपीएल को पहले की अपेक्षा कुछ अधिक पूंजीगत खर्च करने की संभावना है। हालांकि, इससे लीवरेज हेडरूम में भौतिक कमी की संभावना नहीं है। फिच ने कहा कि इंजेक्शन योग्य अनुबंध निर्माण की उच्च मांग के मद्देनजर विस्तार से अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए जेपीएल अच्छी स्थिति में है। आयात अलर्ट जेपीएल के

सभी देशवासियों को
महाशिवरात्रि, स्वतंत्रता दिवस,
रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी
की
हार्दिक
शुभकामनाएं

Mitesh Yogesh Agrawal
Mob.: 9403399266
Muktaram Medical Stores, Gondiya (M.H.)

समग्र प्रभाव मार्च 2021 (FY21) को समाप्त वित्तीय वर्ष में बिक्री के 3 प्रतिशत तक सीमित है। फिच ने कहा कि छूट वाले उत्पादों के लिए अतिरिक्त गुणवत्ता जांच प्रबंधनीय है। 2019 में चेतावनी पत्र के बाद से चल रहे उपचारात्मक प्रयास वृद्धिशील लागतों और समग्र लाभप्रदता पर प्रभाव को सीमित करेंगे। 'हम अनुमान लगाते हैं कि वित्त वर्ष 2021 में जेपीएचएल के समेकित धन (एफएफओ) शुद्ध उत्तोलन (डिजिटल किए गए

अपेक्षाकृत उच्च नियामक जोखिम को रेखांकित करता है क्योंकि इसके छोटे पैमाने पर और बड़े साथियों की तुलना में सीमित उत्पादन संयंत्र हैं। फिच ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं है कि नवीनतम फैसले से जेपीएल के अन्य संयंत्रों की अनुपालन स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर भी, विशेष रूप से जेपीएल के विशेष व्यवसाय को पूरा करने वाले संयंत्रों में और नकारात्मक निर्णय क्रेडिट नकारात्मक होंगे।

व्यर्थ कर्म थकान लाते हैं जबकि श्रेष्ठ कर्म हमें प्रसन्न व हल्का बनाकर ताजगी प्रदान करते हैं.



HK Lifesciences
"Enquiries are welcome for Franchisee/PCD on monopoly basis."

Third Party Manufacturing of SOFT GELS

Tablets Capsules
Soft Gels Liquids
Cream, Ointment & Lotion

For all round strategic support and tools of marketing like scientific evidence etc.
For Timely delivery of products and for best value added service.

HK Lifesciences Pvt. Ltd.
Regd. Office:
198, 1st Floor, Vardaan Tara Plaza CU Market, Pitampura, Delhi 34
Contact:
+91 9756136150, +91 9458348629, +91 11 46107667
Email: jgarg@hklifesciences.in, info@hklifesciences.in

लैंसेट: फाइजर, एस्ट्राजेनेका एंटीबायोटिक का स्तर छह सप्ताह के बाद कम होने लगता है
लंदन: फाइजर और एस्ट्राजेनेका टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण के छह सप्ताह बाद कुल एंटीबायोटिक स्तर कम होना शुरू हो जाता है, और द लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, 10 सप्ताह में 50 प्रतिशत से अधिक कम हो सकता है। यूके में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) के शोधकर्ताओं ने नोट किया कि यदि एंटीबायोटिक का स्तर इस दर से गिरता रहता है, तो चिंताएं हैं कि टीकों के सुरक्षात्मक प्रभाव भी कम होने लग सकते हैं, खासकर नए वेरिएंट के खिलाफ। हालांकि, उन्होंने कहा, यह कितनी जल्दी हो सकता है, इसकी अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं



Nairrti (P) Ltd.
Reg. All India
(An ISO 9001:2015 Certified Company)

SCF 504, Top Floor, Motor Market, Sector 13 (Main Majra), Chandigarh (UT)-160161
Info@nairrti.com, info@nairrti.in | www.nairrti.com, www.nairrti.in
8285 2829 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20



Events Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
Events Corporation
★★★★★
(Ambala)

(WHO, GMP, ISO CERTIFIED PRODUCTS)

Pharma & Veterinary

PCD / FRANCHISE
THIRD PARTY
VETERINARY GOVT. BUSSINESS
VETERINARY ECTOPARASITES (CYPER, DELTA, AMITRTAZ ETC.)
AYURVEDIC
FEED SUPPLEMENTS & COSMETICS
POULTRY PRODUCTS

Contact: (M) 99960-10004, 94160-23262
EVENTS PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
Unit - EVENTS CORPORATION UNIT-II
Ogji, Nahar Road, Kala Amb, Distt. Sirmour (H.P.)-173030
Corporate Office - First Floor, Bank Of Baroda Opp. Reliance Trend, Prem Nagar Ambala City
Web Site: www.events.org.in Email: eventspharma@gmail.com



gary
Committed to **Dermatology for Franchisee**. Exclusive **Derma / Skin / Cosmetology** Products as

Ointments	Tablets	Creams
Lotions	Capsules	Shampoos
Sun Screens	Moisturizers	Dusting Powders
Oils	Face Wash	Soaps

We offer **Monopoly Rights, Leave behind cards, Promotional Materials, Visiting Cards, Visual Aids, etc.**

Franchisee Enquiries:
Cell No. : +91 95927 88478 | Email: business.garypharma@gmail.com

gary Pharmaceuticals P Limited
Off NH-95, VPO Heeran - 141 112 (Pb.) India
garypharma.com | @garypharma | #garypharmaceuticals

355 दवाओं, 882 फॉर्म्युलेशन की कीमतों की सीमा तय : मंत्री
नई दिल्ली: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2015 के तहत 355 दवाओं और 882 फॉर्म्युलेशन की अधिकतम कीमतें तय की हैं, मंगलवार को संसद को सूचित किया गया। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, 'ज्यादातर दवाएं जो COVID-19 प्रबंधन प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं, उनकी अधिकतम कीमतें हैं, जैसे, पैरासिटामोल, डेक्सामेथासोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, आईवीआईजी, एनोक्सपारिन, बुडेसोनाइड, हेपरिन और एम्फोटेरिसिन, आदि।' लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर। रेमेडिसविर जैसी कुछ गैर-अनुसूचित दवाओं के मामले में, जो COVID-19 प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं और गैर-अनुसूचित हैं, सरकारी हस्तक्षेप पर, रेमेडिसविर इंजेक्शन के प्रमुख निर्माताओं / विपणक द्वारा रेमेडिसविर के विभिन्न ब्रांडों के एमआरपी स्वेच्छा से कम कर दिए गए हैं।

संपूर्ण भारतवर्ष में विस्तार हेतु डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्रेंचाइजी, 3rd पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आमंत्रण
A.G.M.P. Certified Company | MFG LIC NO. A3467/3/10/17

रोग भगाये, रक्षक बनाये

चिकित्सकों की पहली पसंद • गुणवत्ता से भरपूर • अनुभवी चिकित्सकों द्वारा तैयार

275+ Products Approved

उच्च कोटि की जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधियों, शुद्धता और विश्वसनीयता से परिपूर्ण SINCE 2003

Syrup • Tablet • Capsule • Oil • Churana • Vati • Asav • Guggul • Ark • Avleh • Quath

AHLAWAT PHARMACY, Kanth, Moradabad, Mob-8218535501
Email: ahlawatpharmacy@gmail.com web: www.ahlawatpharmacy.com 9412025125

जीएसके फार्मा ने एशिया कॉर्पोरेशन को दो ब्रांड्स के अधिकार दिए

मुंबई: एमडी श्रीधर वेंकटेश ने कहा, 'हमारे मूल जीएसके पीएलसी की फार्मास्यूटिकल्स और उपभोक्ता स्वास्थ्य देखभाल में दो विश्व स्तरीय कंपनियां बनाने की नई महत्वाकांक्षा के हिस्से के रूप में, हमने लॉडेक्स और ओस्टोकैल्शियम ब्रांडों के संबंध में अपने अधिकारों को ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एशिया में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।' जीएसके फार्मा ने एशिया कॉर्पोरेशन को दिए 2 ब्रांड के अधिकार, जीएसके फार्मा ने दो प्रमुख ओटीसी ब्रांड आयोडेक्स और ओस्टोकैल्शियम पर अपने अधिकार ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एशिया (उपभोक्ता) को 1,649 करोड़ रुपये में हस्तांतरित करने की घोषणा की। वैश्विक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में लिए गए निर्णय को सोमवार को यहां कंपनी की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई। हस्तांतरण पर टिप्पणी करते हुए, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स के एमडी श्रीधर वेंकटेश ने कहा, "फार्मास्यूटिकल्स और उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा में दो विश्व स्तरीय कंपनियां बनाने की हमारी मूल जीएसके पीएलसी की नई महत्वाकांक्षा के हिस्से के रूप में,

हमने लॉडेक्स और ओस्टोकैल्शियम ब्रांडों के संबंध में अपने अधिकारों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एशिया। लेन-देन वर्ष के अंत से पहले पूरा होने की उम्मीद है, शेरधारक अनुमोदन और प्रासंगिक नियामक अनुमोदन सहित प्रथागत समापन शर्तों के अधीन। परिणामों पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने कहा, "हम उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया जारी रखते हैं और महामारी के कारण होने वाली बाधाओं के बावजूद विकास प्रदान करते हैं। हमारी दवा निर्माण टीम ने हमारे प्रमुख ब्रांडों, विशेष रूप से कैलपोल (पैरासिटामोल) के लिए काफी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए चौबीसों घंटे काम किया। इस प्रयास ने सुनिश्चित किया कि महामारी के दौरान रोगियों को इस महत्वपूर्ण दवा तक पहुंच मिलती रहे। जबकि हमारे टीके व्यवसाय कम टीकाकरण दरों के कारण प्रभावित हुए थे, हमारे कई प्रमुख ब्रांडों ने अनुशासित निष्पादन, बढ़ी हुई डिजिटल क्षमताओं और बाजार में चपलता के कारण मजबूत वृद्धि देखी, जिसके परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।"

ज्ञानी लोग
बड़े गम्भीर विषय पर गुरुजी का भाषण चल रहा था। चूँकि स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रावधान था, अतः हॉल में अँधेरा था। पाँच-दस मिनट के बाद हॉल में लोगों की आपसी बातचीत स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। कुछ लोग मोबाइल पर व्यस्त हो गए थे। गुरुजी ने भाषण को बीच में रोक दिया। वे बोले, "लगता है कि आप सब इस विषय में बेहद ज्ञानी हैं। मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है।"
- डॉ॰ नरेन्द्र नाथ लाहा, ग्वालियर (म.प्र.), मो॰ 09753698240.

www.medicaldarpan.com

सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि, स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

Deal in:- **ETHICAL, GENERIC, OTC, SURGICAL & VAT**
PRAMOD JOSHI, Mob.: 7668711053, 8941015464
Tejaswani Pharmaceuticals, Ratan Kunj Colony, Kaladhungi Road, Haridwari, Nainital (UK)

SKIN CARE

e-derma
A fastest growing Pharma Company with a wide range of products.

Latest Attractive Packing
With All Promotional Inputs
Finest Quality

More Than 190 Products
Franchisee For SKIN SPECIALIST Products

e-derma PHARMA INDIA PVT. LTD.
9034435000, 9034635000
edermapharma@hotmail.com
www.edermapharma.com